



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05102024-257713

CG-DL-W-05102024-257713

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 5—अक्टूबर 11, 2024 (आश्विन 13, 1946)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 5—OCTOBER 11, 2024 (ASVINA 13, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications Regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2024

सेना सचिव "ग्राखा/सेना सचिव (एक्स)

सं. 199, दिनांक 5 अक्टूबर 2024—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमि"न

जनरल के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-42298 जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, पी वी एस एम, ए वी एस एम, जैक रिफ	30 जून 2024(अपराह्न)

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में
1993 बैच

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
वी-00497 ब्रिग अजय कुमार, आर वी सी	10.06.22
आई सी-54761 ब्रिग वी पी एस मलिक, जैंग	17.06.22
आई सी-52299 ब्रिग तमोजीत बिसवास, ए ई सी	01.09.22
आई सी-52323 ब्रिग विकास मोहन, ए ई सी	01.10.22
आई सी-54871 ब्रिग संदीप चहल, वी एस एम, इंजीनियर्स	01.07.22
आई सी-52538 ब्रिग शैलेन्द्र सिंह, ए ओ सी	01.08.22
आई सी-52602 ब्रिग राहुल कुमार, ए ओ सी	01.09.22
आई सी-52666 ब्रिग हेमंत सिंह, ए ए डी	01.08.22

टिप्पणी – उपरोक्त उल्लेखित ब्रिगेडियरों की कल्पित वरिष्ठता की तिथि 02-10-18 है क्योंकि आई सी-54755 ब्रिग. जे नामबियार एस एम, आर्टी 1993 बैच में पदोन्नति पाने वाले पहले अधिकारी हैं। कल्पित वरिष्ठता की तिथि वेतन व पेनान पर असर डाले बिना है।

1994 बैच

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-55030 ब्रिग पी सेठी, एस एम, इंजीनियर्स	01.08.22
आई सी-52726 ब्रिग एन ए चौधरी, इंजीनियर्स	01.08.22
आई सी-52731 ब्रिग ए हुड्डा, इंजीनियर्स	01.08.22
आई सी-52737 ब्रिग एस एस कुँवाहा, वी एस एम, इंजीनियर्स	01.09.22
आई सी-52758 ब्रिग बी जैकोब, वी एस एम, ए ओ सी	01.09.22
आई सी-52766 ब्रिग एस भटनागर, वी एस एम, इंजीनियर्स	01.09.22
आई सी-52771 ब्रिग वी के पुनिया, ए ओ सी	01.11.22
आई सी-52808 ब्रिग वी मलहोत्रा, इंजीनियर्स (जी सी)	01.10.22
आई सी-52809 ब्रिग पी दंगवाल, इंजीनियर्स (जी सी)	01.10.22
आई सी-52823 ब्रिग एस पी पांडे, ई एम ई	01.06.22
आई सी-52825 ब्रिग आर एस नारायणन, ए ए डी	01.08.22
आई सी-52833 ब्रिग ए कुहिते, वी एस एम, इंजीनियर्स (जी सी)	01.11.22
आई सी-52872 ब्रिग रजनी" सुयाल, ए ए डी	01.09.22
आई सी-52915 ब्रिग अमित लैंगर, ई एम ई	01.08.22
आई सी-52935 ब्रिग एस राजीव, ए ए डी	01.11.22
आई सी-52947 ब्रिग वी बहल, इंजीनियर्स	01.12.22
आई सी-52952 ब्रिग जसविंदर सिंह, इंजीनियर्स	01.12.22

आई सी-54600 ब्रिग ए के सिंह, वी एस एम, ई एम ई	01.09.22
आई सी-53166 ब्रिग कुलविंदर सिंह, एस एम, ई एम ई	01.09.22
आई सी-53180 ब्रिग ए जौहर, ई एम ई	01.10.22
आई सी-53194 ब्रिग शकुन सूद, ई एम ई	01.10.22
आई सी-53202 ब्रिग रवि सिंह, ई एम ई	01.10.22
आई सी-53324 ब्रिग वी के मिश्रा, ई एम ई	22.10.22
आई सी-53326 ब्रिग एम एस सोनी, ई एम ई	22.10.22
आई सी-53404 ब्रिग ए शेख, वी एस एम, ए एस सी	01.06.22
आई सी-53409 ब्रिग रोहित सेठी, ए एस सी	01.06.22

टिप्पणी – उपरोक्त उल्लेखित ब्रिगेडियरों की कल्पित वरिष्ठता की तिथि 16-09-2019 है क्योंकि आई सी-54992 ब्रिग रजत कुमार, आर्टी (जी सी) 1994 बैच में पदोन्नति पाने वाले पहले अधिकारी हैं। कल्पित वरिष्ठता की तिथि वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना है।

1995 बैच

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-53240 ब्रिग नकुल यादव, ए एस सी	01.09.22
आई सी-53504 ब्रिग ए वासुदेव, ई एम ई	01.11.22
आई सी-53533 ब्रिग आर जॉन, ई एम ई	01.12.22
आई सी-53549 ब्रिग पी के तिवारी, ए एस सी	01.09.22
आई सी-53606 ब्रिग के मगोत्रा, वी एस एम, ए एस सी	01.10.22
आई सी-54027 ब्रिग पंकज कौशल, वी एस एम, आर्मी ए वी एन	26.08.22
आई सी-54190 ब्रिग स्वर्ण सिंह, वी एस एम, जैक लाई	01.05.22
आई सी-54209 ब्रिग के दास, मद्रास	01.06.22

टिप्पणी – उपरोक्त उल्लेखित ब्रिगेडियरों की कल्पित वरिष्ठता की तिथि 28-12-2020 है क्योंकि आई सी-55212 ब्रिग. एन आर पाण्डे, वी एस एम आर्टी 1995 बैच में पदोन्नति पाने वाले पहले अधिकारी हैं। कल्पित वरिष्ठता की तिथि वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना है।

1996 बैच

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-55246 ब्रिग पी कांडपाल, 5 जी आर	01.06.22
आई सी-55408 ब्रिग, जी आथमाराम, 8 जी आर	01.06.22
आई सी-53992 ब्रिग, एस के गोस्वामी, एस एम, 5 जी आर	01.06.22
आई सी-55443 ब्रिग, एम हेर, एस एम, गार्ड्स	01.07.22
आई सी-55450 ब्रिग, एस के यादव, वी एस एम, कुमौउ	01.07.22
आई सी-55487 ब्रिग करण सिंह, एस एम, डोगरा	01.07.22
आई सी-54300 ब्रिग आर मोहन, एस एम, पैरा	01.07.22

आई सी-54303 ब्रिग एस पी एस रावत, आर्टी (जी सी)	07.10.22
आई सी-54306 ब्रिग प्रदीप सिंह, एस एम, गढवाल रिफ	01.07.22
आई सी-54313 ब्रिग टी के पंत, एस सी, ग्रेनेडियर	01.07.22
आई सी-54317 ब्रिग सौरव वत्स, राजपूत	01.07.22
आई सी-54326 ब्रिग आर कृष्णन, एस एम, गढवाल रिफ	01.08.22
आई सी-54338 ब्रिग एन दे"पाडे, 9 जी आर	01.08.22
आई सी-54346 ब्रिग के एस गिल, एस एम", मराठा लाई	01.08.22
आई सी-54351 ब्रिग एस के सिंह, 9 जी आर	01.08.22
आई सी-54352 ब्रिग एस पटनायक, कुमोंउ	01.08.22
आई सी-54359 ब्रिग के एम सिंदे, एस सी, ग्रेनेडियर	01.08.22
आई सी-54360 ब्रिग बी एस नेगी, वाई एस एम, महार	01.08.22
आई सी-54368 ब्रिग प्रणव कुमार, 11 जी आर	01.08.22
आई सी-54371 ब्रिग पी एम एस दिल्ली, बिहार	07.09.22
आई सी-54386 ब्रिग शैलेन्द बिष्ट, एस एम, 1 जी आर	01.09.22
आई सी-54400 ब्रिग जी नागराजन, वाइ एस एम, डोगरा	01.09.22
आई सी-54412 ब्रिग वी पी यादव, एस एम", नागा	01.09.22
आई सी-54430 ब्रिग राज कुमार ,एस एम, डोगरा	01.09.22
आई सी-54442 ब्रिग ई दलाल ,एस एम, ग्रेनेडियर	01.09.22
आई सी-54457 ब्रिग पी आचार्या, राज रिफ	01.09.22
आई सी-54475 ब्रिग एस के पालांडे, मराठा लाई	01.09.22
आई सी-54477 ब्रिग एम के जैन, सिख लाई	01.09.22
आई सी-54489 ब्रिग वी बहुगुणा, सिख लाई	01.09.22
आई सी-54499 ब्रिग एन के दास, वी एस एम, मद्रास	01.09.22
आई सी-54504 ब्रिग के एस दहिया, महार	01.09.22
आई सी-54512 ब्रिग बी सैनी, एस एम, वी एस एम, पंजाब	10.11.22
आई सी-55538 ब्रिग करण डोगरा, पंजाब	10.11.22
आई सी-55543 ब्रिग एम डिसूजा, वाई एस एम, राजपूत	10.11.22
आई सी-55547 ब्रिग विक्रम सिंह, गढवाल रिफ	10.11.22
आई सी-55566 ब्रिग एस जेड ए रिजवी, जाट	10.11.22
आई सी-55567 ब्रिग पी जे प्रभाकरण, पैरा	10.11.22
आई सी-55581 ब्रिग एस जे तिवारी, कुमोंउ	10.11.22
आई सी-55605 ब्रिग वी एस आर एस नायर, सिख लाई	10.11.22
आई सी-56601 ब्रिग एम वी नालावडे, वाइ एस एम, एस एम", पैरा	10.11.22
आई सी-56608 ब्रिग एम नागपाल, एस एम, राज रिफ	10.11.22

आई सी-56610 ब्रिग जी वी देसाई, एस एम, मद्रास	10.11.22
आई सी-56611 ब्रिग दिनेश सिंह, वी एस एम, डोगरा	10.11.22
आई सी-56619 ब्रिग एस के राके"ी, असाम	01.12.22
आई सी-56630 ब्रिग मनीष शर्मा, आर्टी (जी सी)	20.09.22
आई सी-56633 ब्रिग एस बी घिलदियाल, वी आर सी, आर्टी (जी सी)	23.09.22
आई सी-56639 ब्रिग जोए सैबी, 8 जी आर	01.12.22
आई सी-56647 ब्रिग एस के आनंद, कुमाउं	21.12.22
आई सी-56652 ब्रिग एस कपूर, पैरा	21.12.22
आई सी-56656 ब्रिग अमितोज सिंह, एस एम, गढवाल रिफ	21.12.22
आई सी-56712 ब्रिग एन रंजन, आर्टी	01.06.22
आई सी-56764 ब्रिग एम एस भूषण, आर्टी	01.06.22
आई सी-56799 ब्रिग एस कोहली, आर्टी	20.06.22
आई सी-56852 ब्रिग परिक्षित शर्मा, आर्टी	20.06.22

टिप्पणी - उपरोक्त उल्लेखित ब्रिगेडियरों की कल्पित वरिष्ठता की तिथि 01-11-21 है क्योंकि आई सी- 53494 ब्रिग, सत्येन्द्र सिंह, आर्म्ड 1996 बैच में पदोन्नति पाने वाले पहले अधिकारी हैं। कल्पित वरिष्ठता की तिथि वेतन व पें"न पर असर डाले बिना है।

1997 बैच

आई सी-55718 ब्रिग बी वाइ शर्मा, एस एम, आर्म्ड	30.12.22
आई सी-56933 ब्रिग, यू एस दिल्ली, आर्म्ड	30.12.22
आई सी-56941 ब्रिग आर हरिमोहन, आर्टी	30.09.22
आई सी-56953 ब्रिग एम के एस मोली, आर्टी	30.09.22
आई सी-56985 ब्रिग आर कुरिंस, आर्टी	30.09.22
आई सी-56992 ब्रिग ए नारंग, आर्टी	30.09.22
आई सी-56999 ब्रिग ए कपूर, आर्टी (जी सी)	03.10.22
आई सी-57034 ब्रिग अर्जुन उप्पल, वी एस एम, आर्म्ड	30.12.22
आई सी-57059 ब्रिग प्र"ांत जो"ी, आर्म्ड	30.12.22
आई सी-57062 ब्रिग आइ ए खान, आर्टी (जी सी)	01.11.22
आई सी-57085 ब्रिग आर डी देसाई, आर्टी	01.11.22
आई सी-57128 ब्रिग एल एस कुमार, आर्टी	01.11.22
आई सी-57174 ब्रिग जे एस गिल, आर्म्ड	30.12.22
आई सी-57208 ब्रिग आर के अवस्थी, आर्टी	01.11.22
आई सी-57359 ब्रिग एस एन एस चौहान, आर्टी	01.11.22
आई सी-57439 ब्रिग पी के मिश्रा, आर्टी	01.12.22
आई सी-57445 ब्रिग अर्जुन के, आर्टी	01.12.22
आई सी-57493 ब्रिग जी पी एस जोहल, आर्टी	12.12.22

टिप्पणी - उपरोक्त उल्लेखित ब्रिगेडियरों की कल्पित वरिष्ठता की तिथि 30-09-2022 है क्योंकि आई सी-56941 ब्रिग. आर हरिमोहन, आर्टी 1997 बैच में पदोन्नति पाने वाले पहले अधिकारी हैं। कल्पित वरिष्ठता की तिथि वेतन व पें"न पर असर डाले बिना है।

1999 बैच

आई सी-56151 ब्रिग. के ए कुमार, वी एस एम, जैग	17.06.2022
--	------------

टिप्पणी — उपरोक्त उल्लेखित ब्रिगेडियरों की काल्पनिक वरिष्ठता की तिथि 12-04-2022 है क्योंकि आई सी-56092 ब्रिग. एस प्रभु, जैग, 1999 बैच में पदोन्नति पाने वाले पहले अधिकारी हैं। काल्पनिक वरिष्ठता की तिथि वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना है।

वी एस यादव
निदेशक, एम एस (एक्स)

सेना शाखा

सं. 200, दिनांक 5 अक्टूबर 2024—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करने की अनुमति प्रदान करती हैं :—

प्रादेशिक सेना

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन कर्ण सिंह संधु	टीए-43006पी	(इन्फैन्ट्री)	01 मार्च 2024
कैप्टन राहिल अत्री	टीए-43007एक्स	(इन्फैन्ट्री)	01 मार्च 2024
कैप्टन मनुज भारद्वाज	टीए-43008डब्ल्यू	(इन्फैन्ट्री)	02 मार्च 2024
कैप्टन अंकित सिंह	टीए-43011ए	(इन्फैन्ट्री)	30 मार्च 2024
कैप्टन अरिंदम राय बर्मन	टीए-43013एल	(इन्फैन्ट्री)	06 अप्रैल 2024
कैप्टन अरविंदजोत सिंह गिल	टीए-43014एन	(इन्फैन्ट्री)	06 अप्रैल 2024
कैप्टन अशेष किशोर भट्टाचार्य	टीए-43015डब्ल्यू	(इन्फैन्ट्री)	11 अप्रैल 2024
कैप्टन एल वाईफी	टीए-43018के	(इन्फैन्ट्री)	18 अप्रैल 2024

कैप्टन बनाया जाता है

ले. सौरभ महेश गुप्ता	टीए-43213	(इन्फैन्ट्री)	05 फरवरी 2024
----------------------	-----------	---------------	---------------

ह/- अपठनीय
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 201, दिनांक 05.10.2024—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

नियमित सेना

मेजर से ले. कर्नल

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1399/2013 जिसका शीर्षक भारत संघ एवं अन्य बनाम मेजर रविन्द्र सिंह, सिविल अपील संख्या 2806/2013 जिसका शीर्षक भारत संघ बनाम मेजर बीरेन्द्र सिंह तोमर तथा सिविल

अपील संख्या 10657/2013 जिसका शीर्षक भारत संघ बनाम मेजर शिव कुमार, पारित दिनांक 02 अप्रैल 2023 के कार्यान्वयन आदेश के अनुसार

आर सी सं.	नाम	आर्म/सर्विस	सेवानिवृत्ति की प्रारंभिक तिथि	सेवा में 2 वर्ष की काल्पनिक वृद्धि प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्ति की तिथि	ले. कर्नल के लिए काल्पनिक पदोन्नति की तिथि
आर सी 00663एल	मोहन सिंह शेखावत	ए ए डी	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00667एफ	विशन दास वर्मा	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00668के	कृष्णन के वी	आर्टी	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00671के	हरचरन सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00679डब्ल्यू	बचन सिंह रंधावा	आर्टी	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00681एन	रघवीर सिंह	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00683वाई	कप्तान सिंह यादव	ए ए डी	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00684एफ	मदन लाल	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00686एम	बसवाराज पाटिल	ए सी	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00689ए	के यमचाऊ सिंह	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00691एक्स	जॉन एम वाई	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00692ए	मदन सिंह नैगी	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00693एच	परमजीत सिंह मीन्हास	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00695एन	बीरेन्द्र सिंह नैगी	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00696डब्ल्यू	राम निवास	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00700एन	अशोक कुमार	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00703एफ	कुला नंद शर्मा	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00707एक्स	नितिश चंद्र बिस्वास	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00709एच	अरत्रना लेंका	ए ओ सी	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00712एच	महिंद्र सिंह	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00719एम	एम कृष्णमा नायडू	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00721के	बी सदासिवन पिल्लई	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00722एम	राजबीर सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00724एक्स	सत्या नारायन सिंह	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00725ए	दया शंकर तिवारी	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00727एल	जगतार सिंह घुमन	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	05-दिसम्बर-05
आर सी 00728एन	वी सिवादासन	ईन्फैंट्री	30-नवम्बर-05	30-नवम्बर-07	04-दिसम्बर-06

आर सी 00730एल	जसवीर सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00732डब्ल्यू	ओम प्रकाश कोरला	आर्टी	31-जनवरी-05	31-जनवरी-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00733वाई	बी वी सुब्रया	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00740पी	बस्ती राम	आर्टी	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00741एक्स	शनमुगम विजय कुमार	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00742ए	मोहन सिंह सोहल	ए ए डी	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00744एल	अमरीक सिंह भर्ज	ई एम ई	31-जनवरी-05	31-जनवरी-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00747वाई	डी प्रकाश	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00748एफ	बसंत सिंह भारद्वाज	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00751एफ	पी वेणुगोपलन	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00752के	विनोद कुमार शर्मा	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00753एम	पुरन सिंह	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00754पी	नलीनक्शन चेंगोली	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00759एन	के जनार्दनन	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00760एच	दीप सिंह	ईन्फैंट्री	28-फरवरी-05	28-फरवरी-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00763डब्ल्यू	जगदीप सिंह	ईन्फैंट्री	31-मई-05	31-मई-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00766के	यदविंदर सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00767एम	बासुदेव सिंह गुलेरिया	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00768पी	तेज बीर सुब्बा	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00769एक्स	गुरचरन सिंह भुल्लर	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00771पी	डी वी राव	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00774एम	एम सिवदासन	ई एम ई	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	04-दिसम्बर-06
आर सी 00775एल	के सुसीलन	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00776एन	गोविंद सिंह उनीयाल	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00777डब्ल्यू	राम कुमार	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00779एफ	उदय विहारी के	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00782एफ	एस जयकार	इंट	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00785पी	अम्बरीश प्रसाद दुबे	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00789एल	कैलाश मिश्रा	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00790ए	विशन दास चौधरी	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00793एन	राम सिंह चौहान	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00794डब्ल्यू	मुप्पल्ला रमेश बाबु	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00795वाई	अशलम अली	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-04	31-दिसम्बर-06	04-दिसम्बर-06
आर सी 00799पी	प्रकाश चंद आजाद	आरमर्ड	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06

आर सी 00800वाई	नरेन्द्र पाल सिंह	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00801एफ	बाली राम राय	ए एस सी	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00803एम	मंजीत सिंह	ई एम ई	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00805एक्स	जसबीर सिंह	आर्टी	31-दिसम्बर-05	31-दिसम्बर-07	04-दिसम्बर-06
आर सी 00811एल	शिव कुमार	ए ए डी	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00815एफ	गुरचरन सिंह पुरिया	ए ए डी	31-मई-06	31-मई-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00817एम	जसवंत सिंह	इन्फैंट्री	22-फरवरी-07	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00818पी	दिलबाग सिंह सांगवान	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00819एक्स	उदय नाथ तिवारी	ए ए डी	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00820एम	भंवर सिंह राठोर	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00823ए	अजीत सिंह सांगवान	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00825एल	शीशन सिंह	आर्टी	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00828वाई	सत्या प्रकाश पांडे	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00829एफ	मन्नवा हनुमंथा राव	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00832एफ	रोहतास सिंह	आर्टी	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00835पी	बाबू सिंह राजपूत	आर्टी	23-फरवरी-07	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00837ए	परमानंद	आर्टी	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00840एल	प्रताप सिंह राणा	सिग्नल्स	30-जून-06	30-जून-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00848एम	के प्रभाकरन	मैक	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00849पी	बिक्रम जंग थापा	इन्फैंट्री	30-नवम्बर-06	30-नवम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00851एम	राम निवास खटाना	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00856एल	जोगिंदर सिंह	मैक	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00858डब्ल्यू	प्यारा सिंह	इंट	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00859वाई	हरी सिंह	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00861डब्ल्यू	ओम प्रकाश	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00863एफ	कुलामणी सुतर	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00866पी	भूप सिंह	ए ओ सी	28-फरवरी-06	28-फरवरी-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00869एच	अमरीक सिंह	इन्फैंट्री	24-फरवरी-07	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00872एच	शेख जमरुद्दीन	ईजीनियर्स	30-जून-06	30-जून-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00875डब्ल्यू	पी पी वेणुगोपाल	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00876वाई	मान एन पलानी	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00878के	राम किशन	आर्टी	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00879एम	एम टी वर्गीस	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00880एफ	आर एस एस कुशवाहा	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07

आर सी 00881के	प्रभु दयाल	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00882एम	प्रफुल्ला कुमार नायक	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00883पी	शिव दर्शन सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00885ए	प्रेम सिंह भाटी	ए ए डी	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00886एच	उदयरज पुन	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00889डब्ल्यू	जगत राम	ए ए डी	31-जनवरी-06	31-जनवरी-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00892डब्ल्यू	हरभाग सिंह	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00895के	जगदीप सिंह	ईजीनियर्स	31-मार्च-06	31-मार्च-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00903एक्स	तिलक राज शर्मा	ए एस सी	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00908डब्ल्यू	बलबीर सिंह गौतम	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-06	31-दिसम्बर-08	03-दिसम्बर-07
आर सी 00909वाई	जिसुख राम	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00911डब्ल्यू	अगस्टीन टी एन्टोनी	आर्टी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00912वाई	राणा प्रताप सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00913एफ	जोगिंदर सिंह पठानिया	आर्टी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00914के	हरजिंदर सिंह	ए ए डी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00915एम	अमरजीत सिंह	आर्टी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00916पी	शिव कुमार	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00917एक्स	भारत भक्ता	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00918ए	सुरेन्द्रनाथ के	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00919एच	हरबंस सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00920एक्स	बलबीर सिंह	आर्टी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00922एच	पलवाल्सा प्रभाकरा राव	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00924एन	बलविंदर सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00925डब्ल्यू	ओमकार सिंह	आर्टी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00926वाई	विधि चंद वर्मा	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00929एम	प्रेम सिंह	मैक	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00931के	गिरधारी लाल बेनीवाल	ए ओ सी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00932एम	जय सिंह फोगाट	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00937एल	वासुदेवन पोनमना	ई एम ई	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00938एन	सुशील कुमार	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00939डब्ल्यू	शियोदान सिंह	आर्टी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00940एल	राम कुमार	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00941एन	जगननाथ सिताराम आम्बरे	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08

आर सी 00942डब्ल्यू	गम्बीर सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00943वाई	सन्तोक सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00945के	कुलविंदर सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00948एक्स	टी के बालाकृष्णन	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00950पी	अमरजीत सिंह	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00951एक्स	मकवना जगत सिंह	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00952ए	करम चंद गहलान	ए ओ सी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00953एच	राम करन यादव	ए ओ सी	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00954एल	अशोक सुरेगांवकर	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00958एफ	श्याम सिंह गुसांई	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00959के	राम सिंह छैत्री	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00960वाई	नारायण बाबू श्रेष्ठा	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00961एफ	भुपाल सिंह रोतेला	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00962के	निहाल सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00963एम	नानक चंद	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00966ए	रतन सिंह	आरमर्ड	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00967एच	सतानंद सिंह	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00968एल	राधाकृष्णन जी	ए एस सी	30-नवम्बर-07	30-नवम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00970एच	लक्ष्मण सिंह थापा	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00971एल	राजेन्द्र सिंह	ई एम ई	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00972एन	विश्वा मित्र	आरमर्ड	31-दिसम्बर-07	31-दिसम्बर-09	02-दिसम्बर-08
आर सी 00978पी	शशिधरन नायर पी आर	ईजीनियर्स	31-अक्टूबर-08	31-अक्टूबर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00980एम	ए रविदक्शन सी	सिग्नल्स	30-नवम्बर-08	30-नवम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00981पी	पद्मनाभान	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00982एक्स	जय राम तंवर	मैक	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00983ए	बालाकृष्णन एम	आर्टी	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00985एल	ओम प्रकाश त्रिपाठी	ई एम ई	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00986एन	बोध राज सभरवाल	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00987डब्ल्यू	अरविंद कुमार थापा	ईन्फैंट्री	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00989एफ	गुरनाम सिंह	आर्टी	30-अप्रैल-08	30-अप्रैल-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00990डब्ल्यू	शरत चंद्र माहंता	ई एम ई	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00991वाई	कृष्ण लाल	मैक	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00992एफ	प्रफुल्ला चन्द्रन ई	ई एम ई	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09

आर सी 00993के	श्री मुन्ना सिंह	इंट	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00994एम	आर कन्हैया रेड्डी	इन्फैंट्री	31-मई-08	31-मई-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00995पी	जगदीश प्रसाद	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00996एक्स	के मुरुगासामी	ए एस सी	31-मई-08	31-मई-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00997ए	कृष्ण बहादुर	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 00998एच	दलवीर सिंह	सी एम पी	31-जनवरी-08	31-जनवरी-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01001पी	घासी राम चौधरी	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01008वाई	बिरेन्द्र सिंह तोमर	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01010डब्ल्यू	गणेश चंद	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01011वाई	बेलवालेकर आर जी	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01012एफ	भोंसले के पी	सिग्नल्स	31-मई-08	31-मई-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01014एम	एम मुथुराम	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01016एक्स	घारु राम डोगरा	ई एम ई	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01018एच	जसमिंदर सिंह भंडेर	ई एम ई	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01019एल	मोहनन एम आर	ईजीनियर्स	30-नवम्बर-08	30-नवम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01020ए	राम मोहन पांडे	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01021एच	मुरलीधरन नायर पी	ई एम ई	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01023एन	उमाशंकर ठाकुर	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01024डब्ल्यू	प्रदीप कुमार बरुआ	ई एम ई	30-सितम्बर-08	30-सितम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01027के	राजन सी ओ	ई एम ई	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01030के	सी पुरुषोत्थमन	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01031एम	सुखदेव सिंह	इन्फैंट्री	30-नवम्बर-08	30-नवम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01032पी	देवेन्द्र पाल	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01033एक्स	रघवीर सिंह	इन्फैंट्री	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01035एच	सी पी गोपीमोहन	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01036एल	पी देवदास	ईजीनियर्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01038डब्ल्यू	पी सेकर	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01039वाई	सुखवींदर सिंह	आरमर्ड	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01042वाई	यासम सुब्बा रायडू	सी एम पी	31-जनवरी-08	31-जनवरी-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01043एफ	कमलेश नंदी	सी एम पी	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01045एम	बलविंदर सिंह	सिग्नल्स	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01046पी	सुरेश चंद्र यादव	ई एम ई	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01047एक्स	वर्गीस पी सी	ई एम ई	31-दिसम्बर-08	31-दिसम्बर-10	28-दिसम्बर-09
आर सी 01053एल	नटवर जेना	सिग्नल्स	30-नवम्बर-09	30-नवम्बर-11	13-दिसम्बर-10

आर सी 01061के	शिव विजय सिंह	ई एम ई	30-जून-09	30-जून-11	13-दिसम्बर-10
आर सी 01062एम	बालकरण सिंह मान	आर्टी	31-मार्च-09	31-मार्च-11	13-दिसम्बर-10
आर सी 01071एन	सुरिंदर सिंह नारायण	ई एम ई	31-जनवरी-09	31-जनवरी-11	13-दिसम्बर-10
आर सी 01072डब्ल्यू	जोस वी कोलाचेरील	ई एम ई	30-सितम्बर-09	30-सितम्बर-11	13-दिसम्बर-10
आर सी 01073वाई	ब्रह्मारवर साहू	सिग्नल्स	30-अप्रैल-09	30-अप्रैल-11	13-दिसम्बर-10

प्रितपाल सिंह
लेफ्टिनेंट कर्नल
एएमएस - 8वी

सं. 202, दिनांक 5 अक्टूबर 2024—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजिंदर सिंह राणा	(जे सी - 422193 वाई)	01 मई 2023
सूबेदार मिथिलेश कुमार	(जे सी - 424698 पी)	01 जून 2023

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भगीरथ राम विश्वाई	(जे सी - 423987 डब्ल्यू)	01 मार्च 2023
नायब सूबेदार विनोद कुमार	(जे सी - 423942 डब्ल्यू)	03 मई 2023*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2023 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार परविंदर सिंह	(जे सी - 423641 एम)	20 अप्रैल 2023*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2023 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार प्रिंस एम शमूएल	(जे सी - 423357 डब्ल्यू)	01 मई 2023
नायब सूबेदार गोविन्द साहू	(जे सी - 423682 डब्ल्यू)	01 मई 2023
नायब सूबेदार ज्ञानेन्द्र प्रधान	(जे सी - 423684 एफ)	01 मई 2023
नायब सूबेदार भुरे सिंह तोमर	(जे सी - 423972 एन)	01 मई 2023
नायब सूबेदार अजय सिंह	(जे सी - 423973 डब्ल्यू)	01 मई 2023
नायब सूबेदार लोकेन्द्र पाल सिंह	(जे सी - 423998 एच)	01 मई 2023
नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार	(जे सी - 424008 वाई)	01 मई 2023
नायब सूबेदार भूपिन्द्र सिंह	(जे सी - 423398 ए)	01 मई 2023
नायब सूबेदार अशेम कांता सिंह	(जे सी - 423600 एच)	20 जुलाई 2023*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2023 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार गुरमीत सिंह	(जे सी - 423829 एफ)	01 मई 2023
नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार	(जे सी - 423589 पी)	01 जून 2023
नायब सूबेदार परमजीत सिंह	(जे सी - 423714 एन)	01 जून 2023
नायब सूबेदार ब्रिजेश कुमार तिवारी	(जे सी - 423764 वाई)	01 जून 2023

नायब सूबेदार श्री बिजॉय सावरगारी	(जे सी – 423996 एक्स)	01 जून 2023
नायब सूबेदार संतोष कुमार सिंह	(जे सी – 423739 ए)	10 जुलाई 2023*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2023 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार शियो कुमार पंडित	(जे सी – 423766 के)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार सुरेश चंद्र	(जे सी – 423826 एन)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार संतोष कुमार शर्मा	(जे सी – 423857 एन)	10 जुलाई 2023*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2023 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार विनोद कुमार ए एन	(जे सी – 424074 एफ)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार राजवीर सिंह	(जे सी – 424076 एम)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार राज कुमार	(जे सी – 424187 के)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार लैशराम बीरबल सिंह	(जे सी – 423302 एम)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह राठौर	(जे सी – 423399 एच)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह	(जे सी – 423432 पी)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार सुनिल कुमार सिंह	(जे सी – 423501 ए)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार अजित कुमार सिंह	(जे सी – 423640 के)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार धनपाल वी	(जे सी – 423685 के)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार पुरुषोत्तम बुद्ध	(जे सी – 423719 एम)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(जे सी – 423768 पी)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार सुनील कुमार यादव	(जे सी – 423769 एक्स)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार ईश्वर सिंह	(जे सी – 423770 एम)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार प्रमोद कुमार राय	(जे सी – 423807 एच)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार राधे श्याम सिंह	(जे सी – 423810 एम)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार सिराजुल ईस्लाम बरभुइया	(जे सी – 423840 ए)	06 जुलाई 2023*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2023 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार शमशाद अंसारी	(जे सी – 423875 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार डी शिवा कुमार	(जे सी – 423881 के)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार बालू पाटिल	(जे सी – 423883 पी)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार सतेन्द्र राय	(जे सी – 423885 ए)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार सतेन्द्र कुमार	(जे सी – 423887 एल)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार मोहम्मद सलाउद्दीन हुसैन	(जे सी – 423892 डब्ल्यू)	03 जुलाई 2023*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2023 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार सलिनद्र सिंह	(जे सी – 423894 एफ)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार अतुल कुमार	(जे सी – 423913 एफ)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार दलजीत सिंह	(जे सी – 423914 के)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार परवीन सिंह	(जे सी – 423915 एम)	03 जुलाई 2023*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2023 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार अमन कुमार	(जे सी – 423922 एच)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार नारायण सिंह	(जे सी – 423923 एल)	01 जुलाई 2023

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(जे सी - 423999 एल)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार सुन्दरगिरिवर राजेश नरसय्या	(जे सी - 424036 एल)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार बिश्वजीत राँय	(जे सी - 424060 एफ)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार प्रभाकरण आर	(जे सी - 424066 एच)	01 जुलाई 2023
नायब सूबेदार ग्यारशी लाल	(जे सी - 424072 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2023

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लाल चन्द्र	(14926952 के अब जे सी- 424628 पी)	01 मई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार संजीत कुमार मंडल	(14928672 पी अब जे सी- 424629 एक्स)	01 मई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार बोदू राम	(14928910 डब्ल्यू अब जे सी- 424630 एम)	01 मई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार एस जगन्नाथ	(14928930 के अब जे सी- 424631 पी)	28 मई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार निक्कू सिंह	(14929942 एल अब जे सी- 424632 एक्स)	01 मई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार अजय सिंह	(14929294 एन अब जे सी- 424633 ए)	01 अप्रैल 2023
हवलदार ओम प्रकाश यादव	(14928095 एन अब जे सी- 424634 एच)	01 अप्रैल 2023
हवलदार सत्यबीर सिंह	(14930707 वाई अब जे सी- 424635 एल)	24 अप्रैल 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार बालके सतीश भीमराव	(14928353 एच अब जे सी- 424636 एन)	01 अप्रैल 2023
हवलदार मुकेश कुमार	(14928280 एफ अब जे सी- 424637 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2023
हवलदार आर माधवन	(14930633 पी अब जे सी- 424638 वाई)	01 अप्रैल 2023
हवलदार झंटू पारिया	(14930821 डब्ल्यू अब जे सी- 424639 एफ)	01 अप्रैल 2023
हवलदार परवीन	(14930983 एफ अब जे सी- 424640 डब्ल्यू)	20 अप्रैल 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार करण सिंह	(14929413 वाई अब जे सी- 424641 वाई)	23 मई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार सुरेश यादव	(14928827 वाई अब जे सी- 424642 एफ)	01 मई 2023
हवलदार बलदाऊ कुमार साहु	(14929073 एफ अब जे सी- 424643 के)	13 मई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2022 से दी जाती है।)		
हवलदार रनजीत सिंह	(14930948 वाई अब जे सी- 424644 एम)	01 मई 2023
हवलदार पाटिल दाजी शामराव	(14928886 एल अब जे सी- 424645 पी)	01 मई 2023
हवलदार कृष्णा सिंह	(14929244 एच अब जे सी- 424646 एक्स)	01 मई 2023
हवलदार सुसांता कुमार राउत	(14929418 एक्स अब जे सी- 424647 ए)	01 मई 2023
हवलदार नन्द किशोर कुमार	(14930726 के अब जे सी- 424648 एच)	01 मई 2023
हवलदार अब्बास अली	(14929056 एफ अब जे सी- 424649 एल)	10 जुलाई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2023 से दी जाती है।)		

हवलदार जय प्रकाश यादव	(14929647 एच अब जे सी- 424650 ए)	26 जून 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार विश्वजीत घोष	(14929803 एफ अब जे सी- 424651 एच)	23 मई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार राम दुलारे सिंह	(14929619 डब्ल्यू अब जे सी- 424652 एल)	09 जुलाई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार जाधव प्रदीप तुकाराम	(14931306 डब्ल्यू अब जे सी- 424653 एन)	13 अगस्त 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार रतन चंद	(14933838 पी अब जे सी- 424654 डब्ल्यू)	09 जुलाई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार दुष्यंत सिंह	(14927491 एक्स अब जे सी- 424660 के)	05 जून 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 01 मई 2022 से दी जाती है।)		
हवलदार पाटिल अनिल मधुकर	(14928993 एम अब जे सी- 424661 एम)	01 जून 2023
हवलदार नागेन्द्र प्रसाद	(14927795 पी अब जे सी- 424662 पी)	12 जून 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार शिटोले महेश मदन	(14929090 एफ अब जे सी- 424663 एक्स)	01 जून 2023
हवलदार कांबले मोहनराव श्रीपति	(14930553 एक्स अब जे सी- 424664 ए)	28 जून 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार मुकेश चंद्रा	(14930972 पी अब जे सी- 424665 एच)	07 जून 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जून 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार मनोहर सिंह राठौर	(14929585 एन अब जे सी- 424666 एल)	13 जुलाई 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जून 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार चिन्नोडु बोनु	(14928412 एक्स अब जे सी- 424667 एन)	24 जून 2023*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जून 2023 से दी जाती है।)		

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सत्यवान	(जे सी - 422791 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2024
सूबेदार मनोज कुमार शर्मा	(जे सी - 422529 एन)	01 अप्रैल 2024
सूबेदार बीर सिंह	(जे सी - 422882 ए)	01 अप्रैल 2024
सूबेदार शिंदे दीलिप नामदेव	(जे सी - 422823 एन)	01 अप्रैल 2024
सूबेदार कालू राम	(जे सी - 422902 एच)	01 अप्रैल 2024

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार आनंद सिंह	(जे सी - 423724 एक्स)	04 सितम्बर 2023*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2023 से जाती है।)		
नायब सूबेदार मंगल चन्द खाटी	(जे सी - 423958 एफ)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार चन्द्र भान सिंह	(जे सी - 424080 पी)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार अन्नपूर्णा रेड्डी सीतारेड्डी	(जे सी - 424116 एच)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार जी पलानी	(जे सी - 424129 ए)	01 अप्रैल 2024

नायब सूबेदार शिवलिंगप्पा पत्तेड	(जे सी – 424159 एक्स)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार रोहित कुमार मोहन्ती	(जे सी – 424172 एफ)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार राकेश कुमार सिंह	(जे सी – 424176 एक्स)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार सनातन बेहरा	(जे सी – 424194 ए)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार मनीष कुमार सिंह	(जे सी – 424235 वाई)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार राम कृपाल प्रसाद	(जे सी – 424255 एम)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार विश्वनाथ पाण्डेय	(जे सी – 424276 एच)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार रमेश प्रसाद साहू	(जे सी – 424283 वाई)	03 अप्रैल 2024*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार भागता राम नैन	(जे सी – 424508 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार आशुतोष यादव	(जे सी – 424599 एल)	01 अप्रैल 2024*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2023 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार राधे शाम	(जे सी – 423960 वाई)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार जतिन्द्र सिंह	(जे सी – 423985 एल)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार मुकेश नाईडिंग	(जे सी – 424014 एम)	01 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार एम रामा कृष्णा रेड्डी	(जे सी – 424253 एफ)	01 मई 2024*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार ए मन्निकम	(जे सी – 423974 वाई)	29 अप्रैल 2024
नायब सूबेदार कमलेश कुमार	(जे सी – 423777 डब्ल्यू)	01 मई 2024
नायब सूबेदार अनिल कुमार	(जे सी – 423986 एन)	06 मई 2024*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2024 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण जेना	(जे सी – 424020 ए)	09 मई 2024*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2024 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार एम डी रूस्तम अली	(जे सी – 424033 एक्स)	01 मई 2024
नायब सूबेदार विक्रम सिंह	(जे सी – 424046 पी)	11 मई 2024*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2024 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार दिगविजय	(जे सी – 424101 ए)	01 मई 2024
नायब सूबेदार दुर्गा सहाय सिंह	(जे सी – 424144 पी)	01 मई 2024
नायब सूबेदार एस गुनासेकरण	(जे सी – 424178 एच)	01 मई 2024
नायब सूबेदार अनुज राणा	(जे सी – 424219 एफ)	01 मई 2024
नायब सूबेदार संकल्प कुमार ठाकुर	(जे सी – 424221 वाई)	01 मई 2024
नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार जेना	(जे सी – 424222 एफ)	01 मई 2024
नायब सूबेदार जोजी जॉर्ज	(जे सी – 424232 एल)	01 मई 2024
नायब सूबेदार विनोद कुमार सिंह	(जे सी – 424254 के)	01 मई 2024
नायब सूबेदार सत्यानंद रामकृष्ण मिश्रा	(जे सी – 424303 एफ)	01 मई 2024
नायब सूबेदार जयशंकर कुमार	(जे सी – 424417 एम)	01 मई 2024
नायब सूबेदार शिम्भू दयाल सैनी	(जे सी – 424441 एच)	01 मई 2024

नायब सूबेदार बिद्युत कुमार नाथ	(जे सी - 424472 एच)	01 मई 2024
नायब सूबेदार प्रेम लाल सिंह	(जे सी - 424324 एक्स)	02 मई 2024*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2024 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार जीवन लाल	(जे सी - 424342 ए)	01 जून 2024
नायब सूबेदार गीरधारी लाल लोरा	(जे सी - 424556 डब्ल्यू)	07 जून 2024*
* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2024 से दी जाती है।)		

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रंजीत सिंह	(14943203 के अब जे सी- 424997 एम)	08 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार नरेन्द्र सिंह	(14935791 एन अब जे सी- 424998 पी)	08 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार जगतार सिंह	(14935371 एन अब जे सी- 424999 एक्स)	08 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार बाल कृष्णा कुशवाहा	(14927107 एल अब जे सी- 425000 वाई)	08 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार संजय तमांग	(14928488 के अब जे सी- 425001 एफ)	06 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार मनोहर गुरुंग	(14931733 एम अब जे सी- 425002 के)	01 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2023 से दी जाती है।)		
हवलदार प्रदीप कुमार	(14929600 एक्स अब जे सी- 425006 ए)	06 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार रनदेव सिंह	(14928042 पी अब जे सी- 425007 एच)	29 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार सुजीत मित्रा	(14928528 ए अब जे सी- 425008 एल)	05 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार राहुल कुमार	(14929742 पी अब जे सी- 425009 एन)	01 अप्रैल 2024
हवलदार मोहन सिंह रावत	(14931481 एल अब जे सी- 425010 एच)	01 अप्रैल 2024
हवलदार प्रदीप कुमार	(14931498 वाई अब जे सी- 425011 एल)	01 अप्रैल 2024
हवलदार संजीव कुमार	(14933625 एफ अब जे सी- 425012 एन)	01 अप्रैल 2024
हवलदार सज्जन सिंह	(14934019 एक्स अब जे सी- 425013 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2024
हवलदार लाल सिंह नारूका	(14933731 ए अब जे सी- 425014 वाई)	01 अप्रैल 2024
हवलदार गणेश राम गुर्जर	(14933104 एन अब जे सी- 425015 एफ)	01 अप्रैल 2024
हवलदार हरजिन्दर सिंह	(14933148 एल अब जे सी- 425016 के)	01 अप्रैल 2024
हवलदार भोगा राव थोटा	(14933161 पी अब जे सी- 425017 एम)	01 अप्रैल 2024
हवलदार एस सेतुराज	(14930085 एच अब जे सी- 425018 पी)	13 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार प्रदीपा के एन	(14930425 ए अब जे सी- 425019 एक्स)	13 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		

हवलदार सुरेश कुमार	(14931021 के अब जे सी- 425020 एम)	13 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार नबज्योत सिंह	(14930648 एक्स अब जे सी- 425021 पी)	25 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार राजेश कुमार	(14932469 डब्ल्यू अब जे सी- 425022 एक्स)	17 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार मुद्दला बाबू	(14930291 एम अब जे सी- 425023 ए)	18 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार अमनदीप सिंह	(14935638 एक्स अब जे सी- 425024 एच)	06 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार राम करण गुर्जर	(14933390 ए अब जे सी- 425025 एल)	09 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार सतेंद्र कुमार	(14929744 ए अब जे सी- 425026 एन)	30 अप्रैल 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अप्रैल 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार राम दुलारे राठोर	(14928275 डब्ल्यू अब जे सी- 425028 वाई)	01 मई 2024
हवलदार डोलन कुमार मंडल	(14929856 ए अब जे सी- 425029 एफ)	01 मई 2024
हवलदार सुरेश चन्द्र जेना	(14928668 एम अब जे सी- 425030 डब्ल्यू)	11 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार राधा कृष्णन बी	(14929101 एच अब जे सी- 425031 वाई)	01 मई 2024
हवलदार विशवजीत लायेक	(14930082 पी अब जे सी- 425032 एफ)	01 मई 2024
हवलदार बिक्रमजीत सिंह	(14931079 एफ अब जे सी- 425033 के)	13 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार बीर सिंह	(14931264 पी अब जे सी- 425034 एम)	13 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार अच्युत सेमवाल	(14930981 डब्ल्यू अब जे सी- 425035 पी)	25 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार वी कार्तिकियान	(14929954 ए अब जे सी- 425036 एक्स)	01 मई 2024
हवलदार अभिमन्यु कुमार	(14930440 पी अब जे सी- 425037 ए)	01 मई 2024
हवलदार उदयनाथ दास	(14931914 एक्स अब जे सी- 425038 एच)	11 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार रूपेन्द्र सिंह	(14932560 एम अब जे सी- 425039 एल)	01 मई 2024
हवलदार विकल कुमार	(14933642 एफ अब जे सी- 425040 ए)	01 मई 2024
हवलदार विनोद कुमार	(14936976 एफ अब जे सी- 425041 एच)	12 मई 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार सत्य प्रकाश यादव	(14929926 एन अब जे सी- 425044 डब्ल्यू)	03 जून 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार देवाशीश सरकार	(14930801 एच अब जे सी- 425045 वाई)	08 जून 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार सुरिंदर कुमार	(14931605 पी अब जे सी- 425046 एफ)	01 जून 2024

हवलदार नरेश कुमार	(14933629 एक्स अब जे सी- 425047 के)	07 जून 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2024 से दी जाती है।)		
हवलदार फरसा राम गोदारा	(14931081 वाई अब जे सी- 425048 एम)	14 जून 2024*
* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2024 से दी जाती है।)		

दीपक मल्होत्रा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 203, दिनांक 5 अक्टूबर 2024—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं

(नियमित सेना इन्फैन्ट्री जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री)

सूबेदार मेजर (जी डी) और लिपिक (एस डी) की पदोन्नति के लिए

सूबेदार सूरम सिंह (जेसी 594559डब्ल्यू)	01 जनवरी 2022
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जनवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार सागर सिंह (जेसी 594359ए)	01 मई 2022
सूबेदार मेजर रैंक में 01 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार अब्दुल मजीद कटारिया (जेसी 594377एच)	01 जून 2022
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार राज कुमार (जेसी 594233ए)	01 जून 2022
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार भम्बर सिंह (जेसी 594236एन)	01 जून 2022
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार गणेश दत्त (जेसी 594231पी)	01 जून 2022
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार मोहम्मद मुदस्सर शफीक (जेसी 594302एल)	01 जून 2022
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार मोहम्मद सद्दीर (जेसी 594304डब्ल्यू)	01 अगस्त 2022
सूबेदार मेजर रैंक में 01 अगस्त 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	

नायब सूबेदार (जी डी), संगीतकार और लिपिक (एस डी) की पदोन्नति के लिए

हवलदार लिपिक (एस डी) हरलाल भास्कर (9104304एक्स) अब जेसी 595881पी	24 मार्च 2022
नायब सूबेदार लिपिक (एस डी) रैंक में 01 जनवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार नरेश कुमार (9103531एल) अब जेसी 595882एक्स	09 मार्च 2022
नायब सूबेदार रैंक में 29 जनवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लिपिक (एस डी) अमरजीत सिंह (9104887एल) अब जेसी 595883ए	25 मार्च 2022
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लिपिक (एस डी) नितेश कुमार (9104305ए) अब जेसी 595884एच	28 जनवरी 2022
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार रणजीत सिंह (9104841एच) अब जेसी 595885एल नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 अप्रैल 2022
हवलदार मोहम्मद मुताक मीर (9106517के) अब जेसी 595886एन नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	09 अप्रैल 2022
हवलदार लिपिक (एस डी) सुरेन्द्र कुमार (9104303पी) अब जेसी 595887डब्ल्यू नायब सूबेदार लिपिक (एस डी) रैंक में 01 जनवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	26 अप्रैल 2022
हवलदार फज़ल हुसैन शाह (9104389वाई) अब जेसी 595888वाई नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 मई 2022
हवलदार वकार अहमद (9104179वाई) अब जेसी 595889एफ नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 मई 2022
हवलदार विजय कुमार (9104469डब्ल्यू) अब जेसी 595890डब्ल्यू नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	04 मई 2022
हवलदार अगोक कुमार (9106781एक्स) अब जेसी 595891वाई नायब सूबेदार रैंक में 04 अप्रैल 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	06 मई 2022
हवलदार कमल कुमार (9106495डब्ल्यू) अब जेसी 595892एफ नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	23 अप्रैल 2022
हवलदार मनोज कुमार मनसोत्रा (9103655ए) अब जेसी 595893के नायब सूबेदार रैंक में 24 फरवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	20 मई 2022
हवलदार कुलदीप कुमार (9104542के) अब जेसी 595894एम नायब सूबेदार रैंक में 24 फरवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	05 मई 2022
हवलदार सुरेग कुमार (9104774एच) अब जेसी 595895पी नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	12 मई 2022
हवलदार इम्तियाज अहमद (9103490एम) अब जेसी 595896एक्स नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 मई 2022
हवलदार रंगपाल सिंह (9106928एच) अब जेसी 595897ए नायब सूबेदार रैंक में 09 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 जून 2022
हवलदार जहांगीर हुसैन (9104805एक्स) अब जेसी 595898एच नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 जून 2022
हवलदार परातम लाल (9104845वाई) अब जेसी 595899एल नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 जून 2022
हवलदार सुरजीत सिंह (9104767एम) अब जेसी 595900पी नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 जून 2022
हवलदार राकेग कुमार (9107130एन) अब जेसी 595901एक्स नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 जून 2022
हवलदार लिपिक (एस डी) दलविन्दर सिंह (9104889डब्ल्यू) अब जेसी 595902ए नायब सूबेदार लिपिक (एस डी) रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 जून 2022
हवलदार अगोक कुमार (9104611पी) अब जेसी 595903एच नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	01 जून 2022
हवलदार राजिन्दर कुमार (9104457एफ) अब जेसी 595904एल नायब सूबेदार रैंक में 24 फरवरी 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	13 जून 2022

हवलदार सुनिल कुमार (9103887वाई) अब जेसी 595905एन	01 जुलाई 2022
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार काली दास (9104599वाई) अब जेसी 595906डब्ल्यू	01 जुलाई 2022
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मुताक अहमद खान (9104402एक्स) अब जेसी 595907वाई	01 जुलाई 2022
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद रमजान खान (9103508एक्स) अब जेसी 595908एफ	10 जुलाई 2022
नायब सूबेदार रैंक में 28 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद खजूर शेख (9103729के) अब जेसी 595909के	10 जुलाई 2022
नायब सूबेदार रैंक में 28 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार फरीद अहमद (9103730वाई) अब जेसी 595910वाई	20 जुलाई 2022
नायब सूबेदार रैंक में 28 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अब्दुल हमीद मीर (9103774डब्ल्यू) अब जेसी 595911एफ	10 जुलाई 2022
नायब सूबेदार रैंक में 28 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जोगिन्दर सिंह (9104996एक्स) अब जेसी 595912के	17 जून 2022
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सोहन लाल (9107086पी) अब जेसी 595913एम	21 जून 2022
नायब सूबेदार रैंक में 15 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार करनजीत (9103867एल) अब जेसी 595914पी	12 जुलाई 2022
नायब सूबेदार रैंक में 28 मई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जागर सिंह (9103127डब्ल्यू) अब जेसी 595915एक्स	13 अगस्त 2022
नायब सूबेदार रैंक में 30 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बगीर अहमद वानी (9103424के) अब जेसी 595916ए	13 अगस्त 2022
नायब सूबेदार रैंक में 30 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सतवीर सिंह (9103499एफ) अब जेसी 595917एच	13 अगस्त 2022
नायब सूबेदार रैंक में 30 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार विक्रम सिंह (9103621एम) अब जेसी 595918एल	13 अगस्त 2022
नायब सूबेदार रैंक में 30 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार संदीप चरक (9103829पी) अब जेसी 595919एन	13 अगस्त 2022
नायब सूबेदार रैंक में 30 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार देविन्दर कुमार (9103840एन) अब जेसी 595920एच	22 अगस्त 2022
नायब सूबेदार रैंक में 30 जून 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार वरिन्दर सिंह (9103982एल) अब जेसी 595921एल	13 अगस्त 2022
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार पीर शाहनवाज अहमद (9104026पी) अब जेसी 595922एन	13 अगस्त 2022
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2022 से वरिष्ठता दी जाती है	

संजय कुमार गौर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 204, दिनांक 5 अक्टूबर 2024—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

इन्फैंट्री

डोगरा रेजिमेण्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विजय कुमार	(3999872 एफ अब जेसी 523734 डब्ल्यू)	6 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुनील कुमार	(4000806 वाई अब जेसी 523735 वाई)	12 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुनील कुमार राणा	(4000199 एल अब जेसी 523736 एफ)	20 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विरेन्द्र सिंह	(3999857 एम अब जेसी 523737 के)	6 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दिनेश कुमार	(3998088 एफ अब जेसी 523738 एम)	30 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संजीव कुमार	(3998915 वाई अब जेसी 523739 पी)	25 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजदेव सिंह	(3998957 एल अब जेसी 523740 के)	12 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संतोष कुमार	(3999870 डब्ल्यू अब जेसी 523741 एम)	6 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार ओम प्रकाश	(3998117 एल अब जेसी 523742 पी)	1 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार परमिन्द्र सिंह	(3998185 वाई अब जेसी 523743 एक्स)	17 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अक्टूबर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार श्रवण कुमार	(4365824 एन अब जेसी 523744 ए)	6 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रदीप कुमार	(3997644 ए अब जेसी 523745 एच)	13 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार धर्म पाल	(3998181 एच अब जेसी 523746 एल)	29 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार मुकेश कुमार	(3998183 एन अब जेसी 523747 एन)	29 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संजय कुमार	(20000687 के अब जेसी 523748 डब्ल्यू)	28 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		

हवलदार अश्वनी कुमार	(4000201 एक्स अब जेसी 523749 वाई)	30 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार बलविन्द्र सिंह	(4366955 एल अब जेसी 523750 एन)	6 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार मनोज कुमार	(4000175 एफ अब जेसी 523751 डब्ल्यू)	31 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रदीप कुमार	(4000326 पी अब जेसी 523752 वाई)	30 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 सितम्बर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(4000172 एन अब जेसी 523753 एफ)	28 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अमित कुमार	(4000822 डब्ल्यू अब जेसी 523754 के)	30 सितम्बर 2021
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार अनूप कुमार	(4000209 के अब जेसी 523755 एम)	1 जनवरी 2022
हवलदार अर्जुन सिंह	(4000290एफ अब जेसी 523756 पी)	1 जनवरी 2022
हवलदार अनिल कुमार	(4000319 वाई अब जेसी 523757 एक्स)	01 जनवरी 2022
हवलदार अवतार सिंह	(4000340 एफ अब जेसी 523758 ए)	1 जनवरी 2022
हवलदार मनोज कुमार	(4000471 एम अब जेसी 523759 एच)	1 जनवरी 2022
हवलदार दिनेश कुमार	(4009697 वाई अब जेसी 523762 एच)	2 फरवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजीब कुमार	(4000798 एल अब जेसी 523763 एल)	7 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार भास्कर शर्मा	(3997963 एम अब जेसी 523764 एन)	1 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेन्द्र कुमार	(3998113 पी अब जेसी 523765 डब्ल्यू)	24 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 अक्टूबर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुखदेव राज	(3997707 एक्स अब जेसी 523766 वाई)	3 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार मंगल सिंह	(3999133 पी अब जेसी 523767 एफ)	10 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 नवम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अशोक कुमार	(3998310 एक्स अब जेसी 523768 के)	2 फरवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 नवम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार नवीन	(3997932 एम अब जेसी 523769 एम)	3 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार राज कुमार	(3997694 एल अब जेसी 523770 एफ)	3 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेश सिंह	(3998416 के अब जेसी 523771 के)	3 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार जरनैल सिंह	(3998860 ए अब जेसी 523772 एम)	17 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		

हवलदार रमेश कुमार	(3997695 एन अब जेसी 523773 पी)	1 जनवरी 2022
हवलदार दिलावर सिंह	(3997876 वाई अब जेसी 523774 एक्स)	1 जनवरी 2022
हवलदार राजेश कुमार	(3998219 एफ अब जेसी 523775 ए)	6 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार संजय कुमार	(3997655 एमअब जेसी 523776 एच)	1 जनवरी 2022
हवलदार अजय कुमार	(3997685 के अब जेसी 523777 एल)	1 जनवरी 2022
हवलदार यादव चंद	(3997698 एफ अब जेसी 523778 एन)	1 फरवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार अजय कुमार	(3997741 वाई अब जेसी 523779 डब्ल्यू)	1 फरवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार अजय कुमार	(3998583 ए अब जेसी 523780 एल)	25 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार दलजीत सिंह	(3998252 वाई अब जेसी 523781 एन)	6 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार विनय कुमार	(2997422 पी अब जेसी 523782 डब्ल्यू)	6 जनवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार सोनम अंगदुई	(3998797 डब्ल्यू अब जेसी 523783 वाई)	2 फरवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(3998774 पी अब जेसी 523784 एफ)	2 फरवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार लेख राम	(4002463 एमअब जेसी 523785 के)	2 फरवरी 2022*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2022 से दी जायेगी)		
हवलदार जगदीश	(3997929 एम अब जेसी 523681 एच)	31 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार देश राज	(3997959 के अब जेसी 523682 एल)	31 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेश कुमार	(3997979 एक्स अब जेसी 523683 एन)	17 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजीव कुमार	(3997928 के अब जेसी 523684 डब्ल्यू)	28 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार भारत भूषण	(3997706 पी अब जेसी 523685 वाई)	11 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेश कुमार	(3999009 एन अब जेसी 523686 एफ)	17 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रविन्द्र सिंह	(3998060 एफ अब जेसी 523687 के)	15 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार गजा सिंह	(3998787 एम अब जेसी 523688 एम)	1 सितम्बर 2021

हवलदार विरेन्द्र सिंह	(3997953 एच अब जेसी 523689 पी)	10 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई 2021से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(3998029 पी अब जेसी 523690 के)	7 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अमन कुमार	(3997640 के अब जेसी 523691 एम)	1 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रमेश रवि	(4000791 एफ अब जेसी 523692 पी)	24 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संजय कुमार	(4366835 एम अब जेसी 523693 एक्स)	10 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार जोगिन्द्र पॉल	(3998889 एच अब जेसी 523694 ए)	10 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विशाल शर्मा	(4000082 एम अब जेसी 523695 एच)	10 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार कुलदीप सिंह	(3998038 डब्ल्यू अब जेसी 523696 एल)	7 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार बंता सिंह	(3998052 एच अब जेसी 523697 एन)	7 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार जुझार सिंह	(3998069 डब्ल्यू अब जेसी 523698 डब्ल्यू)	7 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विजय कुमार	(3999590 एच अब जेसी 523702 एन)	23 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 जून 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार धर्मेन्द्र कुमार	(3999849 एन अब जेसी 523703 डब्ल्यू)	20 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दसोध राम रतन	(3999851 एल अब जेसी 523704 वाई)	11 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार बेसर राम	(3997936 एच अब जेसी 523705 एफ)	1 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार भगवान सिंह	(3999899 वाई अब जेसी 523706 के)	11 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार तरसेम कुमार	(3997892 डब्ल्यू अब जेसी 523707 एम)	13 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार पंजाब सिंह	(4000181 पी अब जेसी 523708 पी)	27 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संजय कुमार	(3996429 एच अब जेसी 523709 एक्स)	8 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रवीण कुमार	(4000424 पी अब जेसी 523710 एम)	14 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2021से दी जायेगी)		

हवलदार प्रीतम सिंह, सेना मेडल	(3997868 ए अब जेसी 523711 पी)	1 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रदीप सिंह	(4000533 एफ अब जेसी 523712 एक्स)	7 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सतीश कुमार	(4001252 एक्स अब जेसी 523713 ए)	8 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दीना नाथ	(3998656 एफ अब जेसी 523714 एच)	5 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार पवन कुमार	(3998824 पी अब जेसी 523715 एल)	25 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार जोगिन्द्र पाल	(3998895 डब्ल्यू अब जेसी 523716 एन)	13 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार नेत्र पाल	(3998914 डब्ल्यू अब जेसी 523717 डब्ल्यू)	4 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संजू कुमार	(3999007 एच अब जेसी 523718 वाई)	4 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रीतम सिंह	(3999085 ए अब जेसी 523719 एफ)	25 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार आशा सिंह	(3997947 पी अब जेसी 523720 डब्ल्यू)	1 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विनोद ठाकुर	(3997962 के अब जेसी 523721 वाई)	1 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रघबीर सिंह	(3999043 एन अब जेसी 523722 एफ)	22 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अनिल कुमार	(3999996 डब्ल्यू अब जेसी 523723 के)	20 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार कल्याण सिंह	(3997800 वाई अब जेसी 523724 एम)	5 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अनिल पटियाल	(3998105 डब्ल्यू अब जेसी 523725 पी)	25 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दिला राम	(3999788 एफ अब जेसी 523726 एक्स)	6 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अजय डोगरा	(40005953 एलअब जेसी 523727 ए)	6 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुख देव सिंह चौहान	(3999031वाई अब जेसी 523728एच)	3 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 अगस्त 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दिग विजय	(3998897 एफ अब जेसी 523729 एल)	12 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रंजीत सिंह	(4000183 एअब जेसी 523730 ए)	20 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		

हवलदार रवि कुमार	(3999062 वाई अब जेसी 523731 एच)	20 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार नरेश कुमार	(3998176 एक्स अब जेसी 523732 एल)	25 नवम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 अक्टूबर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेश कुमार	(3998174 एम अब जेसी 523733 एन)	1 दिसम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार पुरम चंद	(3998775 एक्स अब जेसी 523585 एन)	24 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अ"वनी कुमार	(3997648 डब्ल्यू अब जेसी 523586 डब्ल्यू)	27 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सरवजीत सिंह	(4006909 एन अब जेसी 523587 वाई)	30 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजे"ा कुमार	(3996913 पी अब जेसी 523588 एफ)	20 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार कुलबीर सिंह	(3998058 के अब जेसी 523589 के)	27 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार पवन कुमार	(3997011 एम अब जेसी 523590 वाई)	20 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार मन मोहन	(3997023 एफ अब जेसी 523591 एफ)	20 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार स्वरूप सिंह	(3997310 एल अब जेसी 523592 के)	20 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार कुलदीप राज	(3997475 के अब जेसी 523593 एम)	17 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रविन्द्र कुमार	(4000574 एल अब जेसी 523594 पी)	8 अप्रैल 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार गुल"ान मेहता, सेना मेडल	(3998284 एफ अब जेसी 523595 एक्स)	1 मार्च 2021
हवलदार नरे"ा कुमार	(3999454 एम अब जेसी 523596 ए)	15 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राके"ा कुमार	(3999801 ए अब जेसी 523597 एच)	15 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रजनी"ा कुमार	(3998896 वाई अब जेसी 523598 एल)	31 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अप्रैल 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रणव चौहान	(3999032 एफ अब जेसी 523599 एन)	29 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अप्रैल 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार सुदे"ा सिंह	(4000482 वाई अब जेसी 523602 एच)	5 अप्रैल 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अजीत राज	(3997859 वाई अब जेसी 523603 एल)	1 अप्रैल 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		

हवलदार पंकज कुमार	(4000555 ए अब जेसी 523604 एन)	5 अप्रैल 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विपन कुमार	(4000582 के अब जेसी 523605 डब्ल्यू)	5 अप्रैल 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार बलबीर कुमार	(3998403 एम अब जेसी 523606 वाई)	5 अप्रैल 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुनील कुमार	(3998976 डब्ल्यू अब जेसी 523607 एफ)	4 मई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार भुषण कुमार	(3997816 के अब जेसी 523608 के)	17 मई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दलवीर सिंह	(3998391 एच अब जेसी 523609 एम)	12 अप्रैल 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार देवेन्द्र सिंह	(3999835 एन अब जेसी 523610 एफ)	1 मई 2021
हवलदार उजागर सिंह	(3999947 एन अब जेसी 523611 के)	1 मई 2021
हवलदार मंजीत कुमार	(4000159 के अब जेसी 523612 एम)	1 मई 2021
हवलदार अजय सिंह	(3998444 डब्ल्यू अब जेसी 523613 पी)	1 मई 2021
हवलदार सुदेवा कुमार	(3998445 वाई अब जेसी 523614 एक्स)	1 मई 2021
हवलदार विजय चौहन	(4000211 एफ अब जेसी 523615 ए)	11 मई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अजय कुमार	(4000229 एक्स अब जेसी 523616 एच)	1 मई 2021
हवलदार प्रवीण कुमार	(3997651 डब्ल्यू अब जेसी 523617 एल)	1 मई 2021
हवलदार रजनीका कुमार	(20000507 डब्ल्यू अब जेसी 523621 एन)	1 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 नवम्बर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेश कुमार शर्मा	(3998165 एल अब जेसी 523622 डब्ल्यू)	21 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संदीप शर्मा	(3999224 वाई अब जेसी 523623 वाई)	12 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेन्द्र सिंह	(4000631 एफ अब जेसी 523624 एफ)	28 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार त्रिलोक चन्द	(3999253 एन अब जेसी 523625 के)	21 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार तिलक राज	(4007021 एक्स अब जेसी 523626 एम)	5 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दुनी चन्द	(4000730 के अब जेसी 523627 पी)	28 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(3999286 वाई अब जेसी 523628 एक्स)	21 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 अप्रैल 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरम चन्द	(3997894 एफ अब जेसी 523629 ए)	17 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		

हवलदार गणेश कुमार	(4000840 वाई अब जेसी 523630 पी)	28 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार उत्तम चन्द	(4001125 एच अब जेसी 523631 एक्स)	28 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार शर्मा कुमार	(4000205 एन अब जेसी 523632 ए)	14 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार बलजीत सिंह	(3999783 एच अब जेसी 523633 एच)	21 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विजय कुमार	(3999842 के अब जेसी 523634 एल)	21 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रमेश चन्द्र	(3997351 पी अब जेसी 523635 एन)	14 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सोनी लाल	(3997831 वाई अब जेसी 523636 डब्ल्यू)	12 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार मुनी लाल	(3997917 एक्स अब जेसी 523637 वाई)	17 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संतोष सिंह	(3999298 एन अब जेसी 523638 एफ)	12 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अशोक कुमार	(3998777 एच अब जेसी 523639 के)	1 जुलाई 2021

संजय कुमार गौर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 205, दिनांक 5 अक्टूबर 2024—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:-

नियमित सेना

इन्फैंट्री

डोगरा रेजिमेण्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजीव कुमार	(4000144 एफ अब जेसी 523640 वाई)	2 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रंजीत सिंह	(4000167 एच अब जेसी 523641 एफ)	2 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेश कुमार	(3997944 एफ अब जेसी 523642 के)	1 जुलाई 2021
हवलदार विनय कुमार राणा	(3999128 केअब जेसी 523643 एम)	2 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार जरनैल सिंह	(3999130 एफअब जेसी 523644 पी)	10 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		

हवलदार गोपाल शर्मा	(3999134 एक्स अब जेसी 523645 एक्स)	11 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 फरवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रोमेश सिंह	(3999145 के अब जेसी 523646 ए)	2 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार देश राज	(3997491 एफ अब जेसी 523647 एच)	6 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार पवन कुमार	(3997493 एम अब जेसी 523648 एल)	25 जून 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 अप्रैल 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजन	(4000811 के अब जेसी 523649 एन)	31 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अत्तर सिंह, सेना मेडल	(4000094 एफ अब जेसी 523650 एच)	5 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 5 जून 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार कुलवंत सिंह	(3997532 ए अब जेसी 523651 एल)	6 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार जोगिन्द्र सिंह	(3997554 वाई अब जेसी 523652 एन)	6 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संजीव कुमार	(3997562 एक्स अब जेसी 523653 डब्ल्यू)	6 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रवि कुमार	(3997570 डब्ल्यू अब जेसी 523654 वाई)	6 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दिनेश सिंह	(3997614 एच अब जेसी 523655 एफ)	6 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(3997627 ए अब जेसी 523656 के)	6 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अनिल कुमार	(4000170 एच अब जेसी 523657 एम)	5 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार नरेन्द्र कुमार	(3998446 एफ अब जेसी 523658 पी)	23 जुलाई 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार बलविन्द्र कुमार	(4000476 एल अब जेसी 523659 एक्स)	5 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रवि कुमार	(4000521 एम अब जेसी 523660 एम)	5 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार गुरचरण सिंह	(4000652 एक्स अब जेसी 523661 पी)	5 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रजनीश कुमार	(3997641 एम अब जेसी 523662 एक्स)	5 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राज कुमार	(3998879 वाई अब जेसी 523663 ए)	1 अगस्त 2021
हवलदार राजेश कुमार	(4009043 पी अब जेसी 523664 एच)	13 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2020 से दी जायेगी)		

हवलदार चरणजीत सिंह	(3997659 एच अब जेसी 523665 एल)	1 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेश कुमार	(3998613 एम अब जेसी 523666 एन)	2 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार जिया लाल	(3997696 डब्ल्यू अब जेसी 523667 डब्ल्यू)	21 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(3998347 वाई अब जेसी 523668 वाई)	18 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 6 जून 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुनील कुमार	(3998169 एफ अब जेसी 523669 एफ)	21 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जून 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विकास कटोच	(4001217 पी अब जेसी 523670 डब्ल्यू)	11 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार देवेन्द्र सिंह	(3999173 डब्ल्यू अब जेसी 523671 वाई)	25 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जून 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अजय कुमार	(3998193 एक्स अब जेसी 523672 एफ)	24 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संदीप कुमार शर्मा	(3997630 ए अब जेसी 523673 के)	27 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार भारत भूषण	(3998625 एफ अब जेसी 523674 एम)	1 सितम्बर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार बिंदू	(4001288 डब्ल्यू अब जेसी 523675 पी)	11 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार चमन लाल	(4001294 के अब जेसी 523676 एक्स)	11 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राकेश कुमार	(3999193 के अब जेसी 523677 ए)	18 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अजय पठानिया	(4000357 पी अब जेसी 523678 एच)	24 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार जोगिन्द्र सिंह	(4000540 एक्स अब जेसी 523679 एल)	17 अगस्त 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) के रैंक में		
हवलदार मोनिश्वर दत्त	(4007722 एन अब जेसी 523680 ए)	1 अक्टूबर 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक एस डी) सुन्दर सिंह	(3999190 डब्ल्यू अब जेसी 523442 एन)	1 सितम्बर 2020
हवलदार (लिपिक एस डी) संजय कुमार	(3999233 ए अब जेसी 523444 वाई)	20 अक्टूबर 2020*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक एस डी) रोहिताश्व कुमार सैनी	(4000312 पी अब जेसी 523445 एफ)	7 अक्टूबर 2020*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2020 से दी जायेगी)		

हवलदार (लिपिक एस डी) सुनील कुमार	(4001123 एक्स अब जेसी 523538 डब्ल्यू)	5 दिसम्बर 2020*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक एस डी) पीलम सिंह डोगरा	(3998127 पी अब जेसी 523600 एक्स)	27 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक एस डी) नूतन कुमार	(4001114 डब्ल्यू अब जेसी 523601 ए)	2 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक एस डी) बलविन्द्र सिंह	(4001167 पी अब जेसी 523618 एन)	22 अप्रैल 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार (लिपिक एस डी) बलविन्द्र सिंह	(4001168 एक्स अब जेसी 523619 डब्ल्यू)	1 मई 2021
हवलदार (लिपिक एस डी) मनोज कुमार	(4001555 एम अब जेसी 523620 एल)	1 मई 2021
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार सुरे”ा	(3999083 पी अब जेसी 523533 एक्स)	15 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार शेर सिंह	(3997776 एन अब जेसी 523534 ए)	30 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार कलवंत सिंह	(3997783 के अब जेसी 523535 एच)	29 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार पवन कुमार	(3997785 पी अब जेसी 523536 एल)	1 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रजनीश कुमार	(3997815 एफ अब जेसी 523537 एन)	1 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार ताजिन्द्र कुमार	(4000028 वाई अब जेसी 523540 एन)	2 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार रवि कुमार	(3995784 एन अब जेसी 523541 डब्ल्यू)	19 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार शशि पाल सिंह	(3998853 के अब जेसी 523542 वाई)	16 दिसम्बर 2020*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार संदीप पाल	(3999026 एन अब जेसी 523543 एफ)	16 दिसम्बर 2020*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार सुनील कुमार	(3996023 पी अब जेसी 523544 के)	19 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेन्द्र सिंह	(3996892 के अब जेसी 523545 एम)	15 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दिलावर सिंह	(3998161 पी अब जेसी 523546 पी)	19 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अजय कुमार	(4000245 पी अब जेसी 523547 एक्स)	5 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार धमेशवर राम	(3996416 एल अब जेसी 523548 ए)	19 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		

हवलदार राम कुमार, सेना मेडल	(13623331 एल अब जेसी 523549 एच)	5 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार हंस राज	(3996964 एच अब जेसी 523550 एक्स)	19 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रंजीत सिंह	(3999342 एम अब जेसी 523551 ए)	5 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार चमन लाल	(3999389 एक्स अब जेसी 523552 एच)	5 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजीव शर्मा	(3999245 पी अब जेसी 523553 एल)	30 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सरन दास	(3997904 ए अब जेसी 523554 एन)	5 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार पवन कुमार	(3189688 एफ अब जेसी 523555 डब्ल्यू)	31 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेश कुमार	(3997030 एक्स अब जेसी 523556 वाई)	31 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संदीप कुमार	(3997555 एफ अब जेसी 523557 एफ)	2 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सोहन सिंह	(3997561 पी अब जेसी 523558 के)	11 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार हरदेव सिंह	(3997421 एच अब जेसी 523559 एम)	31 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुभाष चंद्र	(2996871 एक्स अब जेसी 523560 एफ)	31 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेश कुमार	(3191037 के अब जेसी 523561 के)	31 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राजिन्द्र सिंह	(3997610 एम अब जेसी 523562 एम)	22 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दलबीर सिंह	(3998595 पी अब जेसी 523563 पी)	1 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार ओम प्रकाश शर्मा	(3996405 वाई अब जेसी 523564 एक्स)	1 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुशील कुमार	(3997778 वाई अब जेसी 523565 ए)	5 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुनील दत्त	(3996846 पी अब जेसी 523566 एच)	26 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार दीपक	(4001335 एच अब जेसी 523567 एल)	2 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2021 से दी जायेगी)		

हवलदार कमलेश कुमार	(4366100 एच अब जेसी 523568 एन)	1 मार्च 2021
हवलदार बलदेव कुमार	(3998878 डब्ल्यू अब जेसी 523569 डब्ल्यू)	1 मार्च 2021
हवलदार राज कुमार	(3999106 एल अब जेसी 523570 एल)	1 मार्च 2021
हवलदार विनय जसवाल	(3999422 के अब जेसी 523571 एन)	2 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रंजीत कुमार	(3998874 ए अब जेसी 523572 डब्ल्यू)	1 मार्च 2021
हवलदार जॉनी जसरोटिया	(20000679 एल अब जेसी 523573 वाई)	22 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार राजिन्द्र शर्मा	(3996700 एफ अब जेसी 523574 एफ)	22 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार संदूप	(3997798 एम अब जेसी 523575 के)	22 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार चमेल सिंह	(3997865 एम अब जेसी 523576 एम)	22 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार राजेश कुमार	(3998070 एल अब जेसी 523577 पी)	22 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राम प्रसाद	(3998306 पी अब जेसी 523578 एक्स)	22 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार छजु राम	(3998428 वाई अब जेसी 523579 ए)	22 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार पुष्पेन्द्र सिंह	(3997563 ए अब जेसी 523580 पी)	10 अप्रैल 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 दिसम्बर 2020 से दी जायेगी)		
हवलदार विरेन्द्र कुमार	(3997729 डब्ल्यू अब जेसी 523581 एक्स)	23 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार बाबू राम	(3998383 के अब जेसी 523582 ए)	8 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेश कुमार	(3997594 ए अब जेसी 523583 एच)	23 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अश्वनी कुमार	(3998768 एफ अब जेसी 523584 एल)	24 मार्च 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रविन्द्र सिंह	(3996506 एम अब जेसी 523483 एक्स)	1 जनवरी 2021
हवलदार कमल राज	(3996858 के अब जेसी 523484 ए)	1 जनवरी 2020
हवलदार जोगिन्द्र सिंह	(3996873 वाई अब जेसी 523485 एच)	1 जनवरी 2021
हवलदार रमन कुमार	(3996496 एन अब जेसी 523486 एल)	9 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेश कुमार	(3996877 पी अब जेसी 523487 एन)	9 जनवरी 2021
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रबिन कुमार	(3997352 एक्स अब जेसी 523488 डब्ल्यू)	1 जनवरी 2021
हवलदार रंजीत सिंह	(3997362 एफ अब जेसी 523489 वाई)	1 जनवरी 2021

हवलदार रामेश्वर सिंह	(3997202 एफ अब जेसी 523490 एन)	1 फरवरी 2021
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार तेज राम	(3997404 एच अब जेसी 523491 डब्ल्यू)	1 जनवरी 2021
हवलदार राजेश कुमार	(3998135 एन अब जेसी 523492 वाई)	1 जनवरी 2021
हवलदार मंजीत कुमार	(13621635 के अब जेसी 523493 एफ)	1 जनवरी 2021
हवलदार रविंद्र कुमार	(3997987 डब्ल्यू अब जेसी 523494 के)	8 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विनोद कुमार	(3997257 एल अब जेसी 523495 एम)	9 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार मनोहर लाल	(3998163 ए अब जेसी 523496 पी)	1 जनवरी 2021
हवलदार संजय कुमार	(3998015 पी अब जेसी 523497 एक्स)	8 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अजेश कुमार	(3996973 के अब जेसी 523498 ए)	1 जनवरी 2021
हवलदार सोहन सिंह	(3996999 वाई अब जेसी 523499 एच)	1 जनवरी 2021
हवलदार सुरजीत सिंह	(3997233 एफ अब जेसी 523500 एम)	1 जनवरी 2021
हवलदार करनैल सिंह	(3997258 एन अब जेसी 523501 पी)	9 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेन्द्र पाल	(3999653 ए अब जेसी 523502 एक्स)	11 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विनोद कुमार	(3999255 वाई अब जेसी 523503 ए)	1 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रंजीत सिंह	(4007396 डब्ल्यू अब जेसी 523504 एच)	1 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सौदागर लाल	(3998040 एन अब जेसी 523505 एल)	8 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार कृपाल सिंह पटानिया	(3998047 एक्स अब जेसी 523506 एन)	8 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार लवनी ¹ अवस्थी	(4000304 डब्ल्यू अब जेसी 523507 डब्ल्यू)	11 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार हकीकत सिंह	(4000429 एन अब जेसी 523508 वाई)	11 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विजय कुमार	(4000469 पी अब जेसी 523509 एफ)	11 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुनील कुमार	(3997494 पी अब जेसी 523510 डब्ल्यू)	4 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुनील कुमार	(3999652 एक्स अब जेसी 523511 वाई)	1 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार संजय कुमार	(3997906 एल अब जेसी 523512 एफ)	1 जनवरी 2021

हवलदार राजे"। कुमार शर्मा	(2995672 एक्स अब जेसी 523513 के)	9 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अजय कुमार	(3997072 के अब जेसी 523514 एम)	14 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुनील कुमार	(3997329 के अब जेसी 523515 पी)	14 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार रिकू	(3999079 एम अब जेसी 523516 एक्स)	1 जनवरी 2021
हवलदार निर्मल सिंह	(3999124 एन अब जेसी 523517 ए)	1 जनवरी 2021
हवलदार विजय कुमार	(3999747 एक्स अब जेसी 523518 एच)	1 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अरुण कुमार	(3997502 एच अब जेसी 523519 एल)	14 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार सुशील कुमार	(3997503 एल अब जेसी 523520 ए)	14 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विपिन राणा	(3999330 एक्स अब जेसी 523521 एच)	8 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार मनोज कुमार	(3997710 एक्स अब जेसी 523522 एल)	25 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार बहादुर सिंह	(3999343 पी अब जेसी 523523 एन)	8 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार विजय सिंह	(3999344 एक्स अब जेसी 523524 डब्ल्यू)	8 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार राके"। सिंह	(3999391 पी अब जेसी 523525 वाई)	8 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार प्यार चन्द	(3997473 वाई अब जेसी 523526 एफ)	9 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार नरेन्द्र कुमार	(3997480 पी अब जेसी 523527 के)	1 फरवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार हेम सिंह	(3998683 एल अब जेसी 523528 एम)	8 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		
हवलदार अ"वनी कुमार	(4001270 ए अब जेसी 523529 पी)	1 जनवरी 2021
हवलदार विजय सिंह	(3999044 डब्ल्यू अब जेसी 523530 के)	1 जनवरी 2021
हवलदार पवन कुमार	(3999058 डब्ल्यू अब जेसी 523531 एम)	1 जनवरी 2021
हवलदार सचिन कुमार शर्मा	(3999061 डब्ल्यू अब जेसी 523532 पी)	13 जनवरी 2021*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2021 से दी जायेगी)		

संजय कुमार गौर
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th October 2024

MILITARY SECRETARY'S BRANCH/MS(X)

No. 199 dated 5th October 2024—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

TO BE SUBSTANTIVE GENERAL

IC No.	RANK	NAME	ARM	Date of Substantive Rank
IC-42298	GENERAL	UPENDRA DWIVEDI, PVSM, AVSM	JAK RIF	30.06.2024(A/N)

TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIER

1993 BATCH

IC NO	RANK	NAME	ARM	DATE OF SUBSTANTIVE BRIG
V00497	BRIG	AJAY KUMAR	RVC	10-06-22
IC54761	BRIG	VPS MALIK	JAG	17-06-22
IC52299	BRIG	TAMOJEET BISWAS	AEC	01-09-22
IC52323	BRIG	VIKAS MOHAN	AEC	01-10-22
IC54871	BRIG	SANDEEP CHAHAL, VSM	ENGRS	01-07-22
IC52538	BRIG	SHAILENDRA SINGH	AOC	01-08-22
IC52602	BRIG	RAHUL KUMAR	AOC	01-09-22
IC52666	BRIG	HEMANT SINGH	AAD	01-08-22

Note- - Date of notional seniority of all the above mentioned Gen officers will be w.e.f 02-10-2018 as IC-54755 Brig J Nambiar, SM, Arty is the first officer of the 1993 batch promoted on 02-10-2018. Date of notional seniority will be without effect on pay and pension.

1994 BATCH

IC No.	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBSTANTIVE BRIG
IC55030	BRIG	P SETHI, SM	ENGRS	01-08-22
IC52726	BRIG	NA CHAUDHARY	ENGRS	01-08-22
IC52731	BRIG	A HOODA	ENGRS	01-08-22
IC52737	BRIG	SS KUSHWAHA, VSM	ENGRS	01-09-22
IC52758	BRIG	B JACOB, VSM	AOC	01-09-22
IC52766	BRIG	S BHATNAGAR, VSM	ENGRS	01-09-22
IC52771	BRIG	VK POONIA	AOC	01-11-22
IC52808	BRIG	V MALHOTRA	ENGRS (GC)	01-10-22
IC52809	BRIG	P DANGWAL	ENGRS (GC)	01-10-22
IC-52823	BRIG	SP PANDEY	EME	01-06-22
IC52825	BRIG	RS NARAYANAN	AAD	01-08-22
IC52833	BRIG	A KUHITE, VSM	ENGRS (GC)	01-11-22

IC No.	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBSTANTIVE BRIG
IC52872	BRIG	RAJNEESH SUYAL	AAD	01-09-22
IC52915	BRIG	AMIT LANGAR	EME	01-08-22
IC52935	BRIG	S RAJEEV	AAD	01-11-22
IC52947	BRIG	V BAHL	ENGRS	01-12-22
IC52952	BRIG	JASWINDER SINGH	ENGRS	01-12-22
IC54600	BRIG	AK SINGH, VSM	EME	01-09-22
IC53166	BRIG	KULWINDER SINGH, SM	EME	01-09-22
IC53180	BRIG	A JOHAR	EME	01-10-22
IC53194	BRIG	SHAKUN SOOD	EME	01-10-22
IC53202	BRIG	RAVI SINGH	EME	01-10-22
IC53324	BRIG	VK MISHRA	EME	22-10-22
IC53326	BRIG	MS SONI	EME	22-10-22
IC-53404	BRIG	A SHEIKH, VSM	ASC	01-06-22
IC-53409	BRIG	ROHIT SETHI	ASC	01-06-22

Note- Date of notional seniority of all the above officers will be w.e.f 16-09-2019 as IC-54992 Brig Rajat Kumar, Arty (GC) is the first officer of the 1994 batch promoted on 16-09-2019. Date of notional seniority will be without effect on pay and pension.

1995 BATCH

IC No.	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBSTANTIVE BRIG
IC53240	BRIG	NAKUL YADAV	ASC	01-09-22
IC53504	BRIG	A VASUDEVA	EME	01-11-22
IC53533	BRIG	R JOHN	EME	01-12-22
IC53549	BRIG	PK TIWARI	ASC	01-09-22
IC53606	BRIG	K MAGOTRA, VSM	ASC	01-10-22
IC54027	BRIG	PANKAJ KAUSHAL, VSM	ARMY AVN	26-08-22
IC54190	BRIG	SWARN SINGH, VSM	JAK LI	01-05-22
IC54209	BRIG	K DAS	MADRAS	01-06-22

Note- Date of notional seniority of all the above officers will be w.e.f 28-12-2020 as IC-55212 Brig NR Pandey, VSM, Arty is the first officer of the 1995 batch promoted on 28-12-2020. Date of notional seniority will be without effect on pay and pension.

1996 BATCH

IC No.	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBSTANTIVE BRIG
IC55246	BRIG	P KANDPAL	5 GR	01-06-22
IC55408	BRIG	G ATHMARAM	8 GR	01-06-22
IC53992	BRIG	SK GOSWAMI, SM	5GR	01-06-22
IC55443	BRIG	M HERR, SM	GUARDS	01-07-22
IC55450	BRIG	SK YADAV, VSM	KUMAON	01-07-22
IC55487	BRIG	KARAN SINGH. SM**	DOGRA	01-07-22

IC No.	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBSTANTIVE BRIG
IC54300	BRIG	R MOHAN, SM	PARA	01-07-22
IC54303	BRIG	SPS RAWAT	ARTY (GC)	07-10-22
IC54306	BRIG	PRADEEP SINGH, SM	GARH RIF	01-07-22
IC54313	BRIG	TK PANT, SC	GRENADIERS	01-07-22
IC54317	BRIG	SAURAV VATS	RAJPUT	01-07-22
IC54326	BRIG	R KRISHNAN, SM	GARH RIF	01-08-22
IC54338	BRIG	N DESHPANDE	9 GR	01-08-22
IC54346	BRIG	KS GILL, SM**	MARATHA LI	01-08-22
IC54351	BRIG	SK SINGH	9 GR	01-08-22
IC54352	BRIG	S PATNAIK	KUMAON	01-08-22
IC54359	BRIG	KM SHENDE, SC	GRENADIERS	01-08-22
IC54360	BRIG	BS NEGI, YSM	MAHAR	01-08-22
IC54368	BRIG	PRANAV KUMAR	11 GR	01-08-22
IC54371	BRIG	PMS DHILLON	BIHAR	07-09-22
IC54386	BRIG	SHAILENDRA BISHT, SM	1 GR	01-09-22
IC54400	BRIG	G NAGARAJAN, YSM	DOGRA	01-09-22
IC54412	BRIG	VP YADAV, SM**	NAGA	01-09-22
IC54430	BRIG	RAJ KUMAR, SM	DOGRA	01-09-22
IC54442	BRIG	E DALAL, SM	GRENADIERS	01-09-22
IC54457	BRIG	P ACHARYA	RAJ RIF	01-09-22
IC54475	BRIG	SK PALANDE	MARATHA LI	01-09-22
IC54477	BRIG	MK JAIN	SIKH LI	01-09-22
IC54489	BRIG	V BAHUGUNA	SIKH LI	01-09-22
IC54499	BRIG	N K DHAS, VSM	MADRAS	01-09-22
IC54504	BRIG	KS DAHIYA	MAHAR	01-09-22
IC54512	BRIG	B SAINI, SM, VSM	PUNJAB	10-11-22
IC55538	BRIG	KARAN DOGRA	PUNJAB	10-11-22
IC55543	BRIG	M DSOUZA, YSM	RAJPUT	10-11-22
IC55547	BRIG	VIKRAM SINGH	GARH RIF	10-11-22
IC55566	BRIG	SZA RIZVI	JAT	10-11-22
IC55567	BRIG	PJ PRABHAKARAN	PARA	10-11-22
IC55581	BRIG	SJ TIWARI	KUMAON	10-11-22
IC55605	BRIG	VSRS NAIR	SIKH LI	10-11-22
IC56601	BRIG	MV NALAWADE, YSM, SM**	PARA	10-11-22
IC56608	BRIG	MANEESH NAGPAL, SM	RAJ RIF	10-11-22
IC56610	BRIG	GV DESAI, SM	MADRAS	10-11-22
IC56611	BRIG	DINESH SINGH, VSM	DOGRA	10-11-22
IC56619	BRIG	SK RAKESH	ASSAM	01-12-22

IC No.	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBSTANTIVE BRIG
IC56630	BRIG	MANISH SHARMA	ARTY (GC)	20-09-22
IC56633	BRIG	SB GHILDIAL, VrC	ARTY (GC)	23-09-22
IC56639	BRIG	JOE SABBY	8 GR	01-12-22
IC56647	BRIG	SK ANAND	KUMAON	21-12-22
IC56652	BRIG	S KAPOOR	PARA	21-12-22
IC56656	BRIG	AMITOH SINGH, SM	GARH RIF	21-12-22
IC56712	BRIG	N RANJAN	ARTY	01-06-22
IC56764	BRIG	MS BHUSHAN	ARTY	01-06-22
IC56799	BRIG	S KOHLI	ARTY	20-06-22
IC56852	BRIG	PRIKSHIT SHARMA	ARTY	20-06-22

Note- Date of notional seniority of all the above officers will be w.e.f 01-11-2021 as IC-53494 Brig Satyendra Singh, ARMD is the first officer of the 1996 batch promoted on 01-11-2021. Date of notional seniority will be without effect on pay and pension.

1997 BATCH

IC No.	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBSTANTIVE BRIG
IC55718	BRIG	BY SHARMA, SM	ARMD	30-12-22
IC56933	BRIG	US DHILLON	ARMD	30-12-22
IC56941	BRIG	R HARIMOHAN	ARTY	30-09-22
IC56953	BRIG	MKS MOULI	ARTY	30-09-22
IC56985	BRIG	R KURIANCE	ARTY	30-09-22
IC56992	BRIG	A NARANG	ARTY	30-09-22
IC-56999	BRIG	A KAPOOR	ARTY (GC)	03-10-22
IC57034	BRIG	ARJUN UPPAL, VSM	ARMD	30-12-22
IC57059	BRIG	PRASHANT JOSHI	ARMD	30-12-22
IC-57062	BRIG	IA KHAN	ARTY (GC)	01-11-22
IC57085	BRIG	RD DESAI	ARTY	01-11-22
IC57128	BRIG	LS KUMAR	ARTY	01-11-22
IC57174	BRIG	JS GILL	ARMD	30-12-22
IC57208	BRIG	RK AWASTHI	ARTY	01-11-22
IC57359	BRIG	SNS CHAUHAN	ARTY	01-11-22
IC57439	BRIG	PK MISHRA	ARTY	01-12-22
IC57445	BRIG	ARJUN K	ARTY	01-12-22
IC57493	BRIG	GPS JOHAL	ARTY	12-12-22

Note- Date of notional seniority of all the above officers will be w.e.f 30-09-2022 as IC-56941 Brig R Harimohan, ARTY the first officer of the 1997 batch promoted on 30-09-2022. Date of notional seniority will be without effect on pay and pension.

1999 BATCH

IC No.	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBSTANTIVE BRIG
IC56151	BRIG	KA KUMAR, VSM	JAG	17-06-22

Note- Date of notional seniority of the above officer will be w.e.f 12-04-2022 as IC-56092 Brig S Prabhu, JAG the first officer of the 1999 batch promoted on 12-04-2022. Date of notional seniority will be without effect on pay and pension.

VS YADAV
Director MS(X)

ARMY BRANCH

No. 200, dated 5th October 2024—The President is pleased to make the following promotions:—

TERRITORIAL ARMY

TO BE MAJOR

Capt Karan Singh Sandhu	TA-43006P	(Infantry)	01 Mar 2024
Capt Rahil Atri	TA-43007X	(Infantry)	01 Mar 2024
Capt Manuj Bhardwaj	TA-43008W	(Infantry)	02 Mar 2024
Capt Ankit Singh	TA-43011A	(Infantry)	30 Mar 2024
Capt Arindam Roy Barman	TA-43013L	(Infantry)	06 Apr 2024
Capt Arvindjot Singh Gill	TA-43014N	(Infantry)	06 Apr 2024
Capt Ashesh Kishore Bhattacharya	TA-43015W	(Infantry)	11 Apr 2024
Capt Lianmuanlal Vaiphei	TA-43018K	(Infantry)	18 Apr 2024

TO BE CAPT

Lt Saurabh Mahesh Gupta	TA-43213	(Infantry)	5 Feb 2024
-------------------------	----------	------------	------------

Sd/-ILLEGIBLE
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 201, dated 5th October 2024—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

MAJ TO BE LT COL

VIDE IMPLEMENTATION ORDER DATED 02 MAR 2023 PASSED BY HON'BLE SUPREME COURT IN CA NO. 1399/2013 TITLED UOI AND ORS VS MAJ RABINDRA SINGH, CA NO 2806/2013 TITLED UOI VS MAJ BIRENDRA SINGH TOMAR & CA NO. 10657/2013 TITLED UOI VS MAJ SHIV KUMAR

RC No.	Name	Arm/Service	Initial Date of Retirement	Date of retirement after grant a notional increase of service by 2yrs	Date of Notional Promotion to the Lt Col
RC00663L	MOHAN SINGH SHEKHAWAT	AAD	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00667F	BISHAN DASS VERMA	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00668K	KRISHNAN K V	ARTY	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00671K	HARCHARAN SINGH	INF	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00679W	BACHAN SINGH RANDHAWA	ARTY	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00681N	RAGHBIR SINGH	SIGS	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00683Y	KAPTAN SINGH YADAV	AAD	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00684F	MADAN LAL	SIGS	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00686M	BASWARAJ PATIL	AC	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05

RC No.	Name	Arm/Service	Initial Date of Retirement	Date of retirement after grant a notional increase of service by 2yrs	Date of Notional Promotion to the Lt Col
RC00689A	K YAIMACHOU SINGH	SIGS	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00691X	JOHN M Y	SIGS	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00692A	MADAN SINGH NEGI	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00693H	PARAMJIT SINGH MINHAS	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00695N	BIRENDRA SINGH NEGI	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00696W	RAM NIWAS	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00700N	ASHOK KUMAR	SIGS	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00703F	KULA NAND SHARMA	INF	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00707X	NITIS CHANDRA BISWAS	SIGS	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00709H	ARTATRANA LENKA	AOC	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00712H	MAHINDER SINGH	SIGS	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00719M	M KRISHNAMA NAIDU	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00721K	B SADASIVAN PILLAI	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00722M	RAJBIR SINGH	INF	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00724X	SATYA NARAYAN SINGH	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00725A	DAYA SHANKER TIWARI	SIGS	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00727L	JAGTAR SINGH GHUMAN	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	05-Dec-05
RC00728N	V SIVADASAN	INF	30-Nov-05	30-Nov-07	04-Dec-06
RC00730L	JASBIR SINGH	INF	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00732W	OM PRAKASH KORLA	ARTY	31-Jan-05	31-Jan-07	04-Dec-06
RC00733Y	BV SUBRAYA	ENGRS	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00740P	BASTI RAM	ARTY	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00741X	SHANMUGAM VIJAYAKUMAR	ENGRS	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00742A	MOHAN SINGH SOHAL	AAD	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00744L	AMRIK SINGH BHARJ	EME	31-Jan-05	31-Jan-07	04-Dec-06
RC00747Y	D PRAKAS	ENGRS	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00748F	BASANT SINGH BHARDWAJ	INF	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00751F	P VENUGOPLAN	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00752K	VINOD KUMAR SHARMA	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00753M	PURAN SINGH	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00754P	NALINAKSHAN CHENGOLI	ENGRS	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00759N	K JANARDHANAN	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06

RC No.	Name	Arm/Service	Initial Date of Retirement	Date of retirement after grant a notional increase of service by 2yrs	Date of Notional Promotion to the Lt Col
RC00760H	DEEP SINGH	INF	28-Feb-05	28-Feb-07	04-Dec-06
RC00763W	JAGDIP SINGH	INF	31-May-05	31-May-07	04-Dec-06
RC00766K	YADWINDER SINGH	INF	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00767M	BASUDEV SINGH GULERIA	INF	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00768P	TEJ BIR SUBBA	INF	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00769X	GURCHARAN SINGH BHULLAR	INF	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00771P	DB RAO	SIGS	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00774M	M SIVADASAN	EME	31-Dec-04	31-Dec-06	04-Dec-06
RC00775L	K SUSEELAN	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00776N	GOVIND SINGH UNIYAL	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00777W	RAM KUMAR	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00779F	UDAYA VIHARI K	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00782F	S JAYAKAR	INT	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00785P	AMBERISH PRASAD DUBEY	SIGS	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00789L	KAILASH MISHRA	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00790A	BISHAN DASS CHAUDHARY	INF	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00793N	RAM SINGH CHAUHAN	INF	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00794W	MUPPALLA RAMESH BABU	ENGRS	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00795Y	ASLAM ALI	ENGRS	31-Dec-04	31-Dec-06	04-Dec-06
RC00799P	PARKASH CHAND AZAD	ARMD	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00800Y	NARENDRA PAL SINGH	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00801F	BALI RAM RAI	ASC	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00803M	MANJIT SINGH	EME	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00805X	JASBIR SINGH	ARTY	31-Dec-05	31-Dec-07	04-Dec-06
RC00811L	SHIV KUMAR	AAD	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00815F	GURCHARAN SINGH PURIA	AAD	31-May-06	31-May-08	03-Dec-07
RC00817M	JASWANT SINGH	INF	22-Feb-07	31-Dec-08	03-Dec-07

RC No.	Name	Arm/Service	Initial Date of Retirement	Date of retirement after grant a notional increase of service by 2yrs	Date of Notional Promotion to the Lt Col
RC00818P	DILBAGH SINGH SANGWAN	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00819X	UDAY NATH TIWARY	AAD	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00820M	BHANWAR SINGH RATHORE	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00823A	AJIT SINGH SANGWAN	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00825L	SISSAN SINGH	ARTY	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00828Y	SATYA PRAKASH PANDEY	SIGS	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00829F	MANNAVA HANUMANTHA RAO	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00832F	ROHTAS SINGH	ARTY	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00835P	BABOO SINGH RAJPUT	ARTY	23-Feb-07	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00837A	PARMANAND	ARTY	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00840L	PRATAP SINGH RANA	SIGS	30-Jun-06	30-Jun-08	03-Dec-07
RC00848M	K PRABHAKARAN	MECH	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00849P	BIKRAM JANG THAPA	INF	30-Nov-06	30-Nov-08	03-Dec-07
RC00851M	RAM NIWASH KHATANA	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00856L	JOGINDER SINGH	MECH	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00858W	PYARA SINGH	INT	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00859Y	HARI SINGH	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00861W	OM PARKASH	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00863F	KULAMANI SUTAR	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00866P	BHUP SINGH	AOC	28-Feb-06	28-Feb-08	03-Dec-07
RC00869H	AMRIK SINGH	INF	24-Feb-07	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00872H	SHEIK JAMERUDDIN	ENGRS	30-Jun-06	30-Jun-08	03-Dec-07
RC00875W	P P VENOGOPAL	SIGS	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00876Y	MAN N PALANI	SIGS	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00878K	RAM KISHAN	ARTY	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00879M	MT VARUGHESE	SIGS	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00880F	RSS KUSHWAHA	SIGS	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00881K	PRABHU DAYAL	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00882M	PRAFULLA KUMAR	SIGS	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07

RC No.	Name	Arm/Service	Initial Date of Retirement	Date of retirement after grant a notional increase of service by 2yrs	Date of Notional Promotion to the Lt Col
	NAIK				
RC00883P	SHIV DARSHAN SINGH	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00885A	PREM SINGH BHATI	AAD	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00886H	UDAIRAJ PUN	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00889W	JAGAT RAM	AAD	31-Jan-06	31-Jan-08	03-Dec-07
RC00892W	HARBHAG SINGH	SIGS	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00895K	JAGDIP SINGH	ENGRS	31-Mar-06	31-Mar-08	03-Dec-07
RC00903X	TILAK RAJ SHARMA	ASC	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00908W	BALBIR SINGH GAUTAM	INF	31-Dec-06	31-Dec-08	03-Dec-07
RC00909Y	JISUKH RAM	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00911W	AUGUSTINE T ANTONY	ARTY	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00912Y	RANA PARTAP SINGH	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00913F	JOGINDER SINGH PATHANIA	ARTY	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00914K	HARJINDER SINGH	AAD	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00915M	AMARJIT SINGH	ARTY	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00916P	SHIV KUMAR	SIGS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00917X	BHARAT BHAKTA	SIGS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00918A	SURENDRANATH K	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00919H	HARBANS SINGH	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00920X	BALBIR SINGH	ARTY	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00922H	PALAVALSA PRABHAKARA RAO	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00924N	BALWINDER SINGH	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00925W	OMKAR SINGH	ARTY	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00926Y	BIDHI CHAND VERMA	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00929M	PREM SINGH	MECH	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00931K	GIRDHARI LAL BENIWAL	AOC	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00932M	JAI SINGH PHOGAT	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00937L	VASUDEVAN PONMANA	EME	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00938N	SUSHIL KUMAR	SIGS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08

RC No.	Name	Arm/Service	Initial Date of Retirement	Date of retirement after grant a notional increase of service by 2yrs	Date of Notional Promotion to the Lt Col
RC00939W	SHEODAN SINGH	ARTY	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00940L	RAM KUMAR	SIGS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00941N	JAGANNATH SITARAM AMBRE	SIGS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00942W	GAMBIR SINGH	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00943Y	SANTOK SINGH	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00945K	KULWINDER SINGH	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00948X	TK BALAKRISHNAN	SIGS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00950P	AMARJIT SINGH	SIGS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00951X	MAKAVANA JAGAT SINGH	SIGS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00952A	KARAM CHAND GAHLAN	AOC	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00953H	RAM KARAN YADAV	AOC	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00954L	ASHOK SUREGAONKAR	ENGRS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00958F	SHYAM SINGH GUSAIN	ENGRS	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00959K	RAM SINGH CHHETRY	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00960Y	NARAYAN BABU SHRESTHA	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00961F	BHUPAL SINGH RAUTELA	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00962K	NIHAL SINGH	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00963M	NANAK CHAND	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00966A	RATTAN SINGH	ARMD	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00967H	SATANAND SINGH	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00968L	RADHAKRISHNAN G	ASC	30-Nov-07	30-Nov-09	02-Dec-08
RC00970H	LAXMAN SINGH THAPA	INF	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00971L	RAJENDER SINGH	EME	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00972N	WISHVA MITTER	ARMD	31-Dec-07	31-Dec-09	02-Dec-08
RC00978P	SASIDHARAN NAIR P R	ENGRS	31-Oct-08	31-Oct-10	28-Dec-09
RC00980M	A RAVINDAKSHAN C	SIGS	30-Nov-08	30-Nov-10	28-Dec-09
RC00981P	PADHMANABHAN	ENGRS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09

RC No.	Name	Arm/Service	Initial Date of Retirement	Date of retirement after grant a notional increase of service by 2yrs	Date of Notional Promotion to the Lt Col
RC00982X	JAI RAM TANWAR	MECH	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00983A	BALAKRISHNAN M	ARTY	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00985L	OM PRAKASH TRIPATHI	EME	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00986N	BODH RAJ SABHARWAL	INF	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00987W	ARVIND KUMAR THAPA	INF	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00989F	GURNAM SINGH	ARTY	30-Apr-08	30-Apr-10	28-Dec-09
RC00990W	SARAT CHANDRA MAHANTA	EME	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00991Y	KRISHAN LAL	MECH	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00992F	PRAFULLA CHANDRAN E	EME	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00993K	SRI MUNNA SINGH	INT	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00994M	R KANNAIAH REDDY	INF	31-May-08	31-May-10	28-Dec-09
RC00995P	JAGDISH PRASAD	INF	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00996X	K MURUGASAMY	ASC	31-May-08	31-May-10	28-Dec-09
RC00997A	KRISHAN BAHADUR	INF	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC00998H	DALVIR SINGH	CMP	31-Jan-08	31-Jan-10	28-Dec-09
RC01001P	GHASI RAM CHOUDHARY	INF	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01008Y	BIRENDRA SINGH TOMAR	INF	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01010W	GANESH CHAND	ENGRS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01011Y	BELAVALEKAR RG	SIGS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01012F	BHOSALE K P	SIGS	31-May-08	31-May-10	28-Dec-09
RC01014M	M MUTHURAM	ENGRS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01016X	GHARU RAM DOGRA	EME	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01018H	JASMINDER SINGH BHANDHER	EME	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01019L	MOHANAN MR	ENGRS	30-Nov-08	30-Nov-10	28-Dec-09
RC01020A	RAM MOHAN PANDEY	SIGS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01021H	MURALEEDHARAN NAIR P	EME	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01023N	UMASHANKAR THAKUR	ENGRS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09

RC No.	Name	Arm/Service	Initial Date of Retirement	Date of retirement after grant a notional increase of service by 2yrs	Date of Notional Promotion to the Lt Col
RC01024W	PRADIP KUMAR BARUAH	EME	30-Sep-08	30-Sep-10	28-Dec-09
RC01027K	RAJAN C O	EME	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01030K	C PURUSHOTHAMAN	SIGS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01031M	SUKHDEV SINGH	INF	30-Nov-08	30-Nov-10	28-Dec-09
RC01032P	DEVENDRA PAL	INF	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01033X	RAGHBIR SINGH	INF	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01035H	CP GOPIMOHAN	ENGRS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01036L	P DEVADHAS	ENGRS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01038W	P SEKAR	SIGS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01039Y	SUKHVINDER SINGH	ARMD	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01042Y	YASAM SUBBA RAYUDU	CMP	31-Jan-08	31-Jan-10	28-Dec-09
RC01043F	KAMLESH NANDI	CMP	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01045M	BALWINDER SINGH	SIGS	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01046P	SURESH CHANDRA YADAV	EME	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01047X	VARUGHESE PC	EME	31-Dec-08	31-Dec-10	28-Dec-09
RC01053L	NATABAR JENA	SIGS	30-Nov-09	30-Nov-11	13-Dec-10
RC01061K	SHIV VIJAY SINGH	EME	30-Jun-09	30-Jun-11	13-Dec-10
RC01062M	BALKARAN SINGH MANN	ARTY	31-Mar-09	31-Mar-11	13-Dec-10
RC01071N	SURINDAR SINGH NARAYAN	EME	31-Jan-09	31-Jan-11	13-Dec-10
RC01072W	JOSE V KOLACHERIL	EME	30-Sep-09	30-Sep-11	13-Dec-10
RC01073Y	BHRAMARBAR SAHOO	SIGS	30-Apr-09	30-Apr-11	13-Dec-10

PRITPAL SINGH
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 202 dated 5th October 2024—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (GD)

SUB RAJINDER SINGH RANA

(JC-422193Y)

01 MAY 2023

SUB MITHILESH KUMAR

(JC-422698P)

01 JUN 2023

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (GD)

NB SUB BHAGIRATH RAM BISHNOI	(JC-423987W)	01 MAR 2023
NB SUB VINOD KUMAR	(JC-423942W)	03 MAY 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Apr 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB PARVINDER SINGH	(JC-423641M)	20 APR 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 16 Apr 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB PRINCE M SAMUEL	(JC-423357W)	01 MAY 2023
NB SUB GOBINDA SAHU	(JC-423682W)	01 MAY 2023
NB SUB GYANENDRA PRADHAN	(JC-423684F)	01 MAY 2023
NB SUB BHOORE SINGH TOMAR	(JC-423972N)	01 MAY 2023
NB SUB AJAY SINGH	(JC-423973W)	01 MAY 2023
NB SUB LOKENDRA PAL SINGH	(JC-423998H)	01 MAY 2023
NB SUB RAJENDRA KUMAR	(JC-424008Y)	01 MAY 2023
NB SUB BHUPINDER SINGH	(JC-423398A)	01 MAY 2023
NB SUB ASHEM KANTA SINGH	(JC-423600H)	20 JUL 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 May 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB GURMEET SINGH	(JC-423829F)	01 MAY 2023
NB SUB RAVINDRA KUMAR	(JC-423589P)	01 JUN 2023
NB SUB PARMJEET SINGH	(JC-423714N)	01 JUN 2023
NB SUB BRIJESH KUMAR TIWARI	(JC-423764Y)	01 JUN 2023
NB SUB SRI BIJOY SAWARGARI	(JC-423996X)	01 JUN 2023
NB SUB SANTOSH KUMAR SINGH	(JC-423739A)	10 JUL 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jul 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SHEO KUMAR PANDIT	(JC-423766K)	01 JUL 2023
NB SUB SURESH CHAND	(JC-423826N)	01 JUL 2023
NB SUB SANTOSH KUMAR SHARMA	(JC-423857N)	10 JUL 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jul 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB VINOD KUMAR AN	(JC-424074F)	01 JUL 2023
NB SUB RAJVIR SINGH	(JC-424076M)	01 JUL 2023
NB SUB RAJ KUMAR	(JC-424187K)	01 JUL 2023
NB SUB LAISHRAM BIRBAL SINGH	(JC-423302M)	01 JUL 2023
NB SUB SURENDRA SINGH RATHORE	(JC-423399H)	01 JUL 2023
NB SUB VIRANDERA SINGH	(JC-423432P)	01 JUL 2023
NB SUB SUNIL KUMAR SINGH	(JC-423501A)	01 JUL 2023
NB SUB AJIT KUMAR SINGH	(JC-423640K)	01 JUL 2023
NB SUB DHANAPAL V	(JC-423685K)	01 JUL 2023
NB SUB PURUSOTTAM BUDDA	(JC-423719M)	01 JUL 2023
NB SUB RAJESH KUMAR	(JC-423768P)	01 JUL 2023
NB SUB SUNIL KUMAR YADAV	(JC-423769X)	01 JUL 2023
NB SUB ISHWAR SINGH	(JC-423770M)	01 JUL 2023
NB SUB PRAMOD KUMAR RAI	(JC-423807H)	01 JUL 2023
NB SUB RADHEY SHYAM SINGH	(JC-423810H)	01 JUL 2023
NB SUB SIRAJUL ISLAM BARBHUTYA	(JC-423840A)	06 JUL 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jul 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SHAMSHAD ANSARI	(JC-423875W)	01 JUL 2023
NB SUB D SIVA KUMAR	(JC-423881K)	01 JUL 2023

NB SUB BALU PATIL	(JC-423883P)	01 JUL 2023
NB SUB SATENDER RAI	(JC-423885A)	01 JUL 2023
NB SUB SATYENDRA KUMAR	(JC-423887L)	01 JUL 2023
NB SUB MD SALAUDDIN HOSSAIN	(JC-423892W)	03 JUL 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jul 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SALINDER SINGH	(JC-423894F)	10 JUL 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jul 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB ATUL KUMAR	(JC-423913F)	01 JUL 2023
NB SUB DALJIT SINGH	(JC-423914K)	01 JUL 2023
NB SUB PARVEEN SINGH	(JC-423915M)	03 JUL 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jul 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB AMAN KUMAR	(JC-423922H)	01 JUL 2023
NB SUB NARAYAN SINGH	(JC-423923L)	01 JUL 2023
NB SUB SURENDRA SINGH	(JC-423999L)	01 JUL 2023
NB SUB NARSAYYA SUNDARGIRIWAR	(JC-424036L)	01 JUL 2023
RAJESH		
NB SUB BISWAJIT ROY	(JC-424060F)	01 JUL 2023
NB SUB PRABAKARAN R	(JC-424066H)	01 JUL 2023
NB SUB GYARSHI LAL	(JC-424072W)	01 JUL 2023
TO BE NAIB SUBEDAR (GD)		
HAV LAL CHAND	(14926952K Now JC-424628P)	01 MAY 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 19 Mar 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV SANJIT KUMAR MANDAL	(14928672P Now JC-424629X)	01 MAY 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 19 Mar 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV BODU RAM	(14928910W Now JC-424630M)	01 MAY 2023*
*(Granted Notional Seniority in the rank of Naib Subedar wef 19 Mar 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV S JAGANNATH	(14928930K Now JC-424631P)	28 MAY 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 19 Mar 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV NIKKU SINGH	(14929942L Now JC-424632X)	01 MAY 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 19 Mar 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV AJAY SINGH	(14929294N Now JC-424633A)	01 APR 2023
HAV OM PRAKASH YADAV	(14928095N Now JC-424634H)	01 APR 2023
HAV SATYABEER SINGH	(14930707Y Now JC-424635L)	24 APR 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV WALAKE SATISH BHIMRAO	(14928353H Now JC-424636N)	01 APR 2023
HAV MUKESH KUMAR	(14928280F Now JC-424637W)	01 APR 2023
HAV R MADHAVAN	(14930633P Now JC-424638Y)	01 APR 2023
HAV JHANTU PARIA	(14930821W Now JC-424639F)	01 APR 2023
HAV PARVEEN	(14930983F Now JC-424640W)	20 APR 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 16 Apr 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV KARAN SINGH	(14929413Y Now JC-424641Y)	23 MAY 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 30 Apr 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV SURESH YADAV	(14928827Y Now JC-424642F)	01 MAY 2023
HAV BALDAU KUMAR SAHU	(14929073F Now JC-424643K)	13 MAY 2023*
*(Granted Notional Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2022 without effect on pay and allowances)		
HAV RANJEET SINGH	(14930948Y Now JC-424644M)	01 MAY 2023

HAV PATIL DAJI SHAMRAO	(14928886L Now JC-424645P)	01 MAY 2023
HAV KIRSHAN SINGH	(14929244H Now JC-424646X)	01 MAY 2023
HAV SUSANTA KUMAR ROUT	(14929418X Now JC-424647A)	01 MAY 2023
HAV NAND KISHOR KUMAR	(14930726K Now JC-424648H)	01 MAY 2023
HAV ABBAS ALI	(14929056F Now JC-424649L)	10 JUL 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV JAY PRAKASH YADAV	(14929647H Now JC-424650A)	26 JUN 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 07 May 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV BISWAJIT GHOSH	(14929803F Now JC-424651H)	23 MAY 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 13 May 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV RAM DULARE SINGH	(14929619W Now JC-424652L)	09 JUL 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 24 May 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV JADHAV PRADIP TUKARAM	(14931306W Now JC-424653N)	13 Aug 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 24 May 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV RATTAN CHAND	(14933838P Now JC-424654W)	09 JUL 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 24 May 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV DUSHYANT SINGH	(14927491X Now JC-424660K)	05 JUN 2023*
*(Granted Notional Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2022 without effect on pay and allowances)		
HAV PATIL ANIL MADHUKAR	(14928993M Now JC-424661M)	01 JUN 2023
HAV NAGENDRA PRASAD	(14927795P Now JC-424662P)	12 JUN 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV SHITOLE MAHESH MADAN	(14929090F Now JC-424663X)	01 JUN 2023
HAV KAMBLE MOHANRAO SHRIPATI	(14930553X Now JC-424664A)	28 JUN 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV MUKESH CHANDRA	(14930972P Now JC-424665H)	07 JUN 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 05 Jun 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV MANOHAR SINGH RATHORE	(14929585N Now JC-424666L)	13 JUL 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jun 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV CHINNODU BONU	(14928412X Now JC-424667N)	24 JUN 2023*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 12 Jun 2023 without effect on pay and allowances)		
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR (GD)		
SUB SATYAWAN	(JC-422791W)	01 FEB 2024
SUB MANOJ KUMAR SHARMA	(JC-422529N)	01 APR 2024
SUB BEER SINGH	(JC-422882A)	01 APR 2024
SUB SHINDE DEELIP NAMDEO	(JC-422823N)	01 APR 2024
SUB KALU RAM	(JC-422902H)	01 APR 2024
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (GD)		
NB SUB ANAND SINGH	(JC-423724X)	04 SEP 2023*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Sep 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB MANGAL CHAND KHATI	(JC-423958F)	01 APR 2024
NB SUB CHANDRA BHAN SINGH	(JC-424080P)	01 APR 2024
NB SUB SITAREDDY ANNAPURNA REDDY	(JC-424116H)	01 APR 2024
NB SUB G PALANI	(JC-424129A)	01 APR 2024
NB SUB SHIVALINGAPPA PATTED	(JC-424159X)	01 APR 2024
NB SUB ROHITA KUMAR MOHANTY	(JC-424172F)	01 APR 2024
NB SUB RAKESH KUMAR SINGH	(JC-424176X)	01 APR 2024

NB SUB SANATAN BEHERA	(JC-424194A)	01 APR 2024
NB SUB MANISH KUMAR SINGH	(JC-424235Y)	01 APR 2024
NB SUB RAM KRIPAL PRASAD	(JC-424255M)	01 APR 2024
NB SUB VISHWANATH PANDEY	(JC-424276H)	01 APR 2024
NB SUB RAMESH PRASAD SAHU	(JC-424283Y)	03 APR 2024*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
NB SUB BHAGTA RAM NAIN	(JC-424508W)	01 APR 2024
NB SUB ASHUTOSH YADAV	(JC-424599L)	01 APR 2024*
*(Granted Notional seniority in the rank of substantive Subedar wef 26 Dec 2023 without effect on pay and allowances)		
NB SUB RADHEY SHAM	(JC-423960Y)	01 APR 2024
NB SUB JATINDER SINGH	(JC-423985L)	01 APR 2024
NB SUB MUKESH NAIDING	(JC-424014M)	01 APR 2024
NB SUB M RAMA KRISHNA REDDY	(JC-424253F)	01 MAY 2024*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
NB SUB A MANICKAM	(JC-423974Y)	29 APR 2024
NB SUB KAMLESH KUMAR	(JC-423777W)	01 MAY 2024
NB SUB ANIL KUMAR	(JC-423986N)	06 MAY 2024*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 May 2024 without effect on pay and allowances)		
NB SUB LAXMI NARAYANA JENA	(JC-424020A)	09 MAY 2024*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 May 2024 without effect on pay and allowances)		
NB SUB MD RUSTAM ALI	(JC-424033X)	01 MAY 2024
NB SUB VIKRAM SINGH	(JC-424046P)	11 MAY 2024*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 May 2024 without effect on pay and allowances)		
NB SUB DIGVIJAYA	(JC-424101A)	01 MAY 2024
NB SUB DURGA SAHAY SINGH	(JC-424144P)	01 MAY 2024
NB SUB S GUNASEKARAN	(JC-424178H)	01 MAY 2024
NB SUB ANUJ RANA	(JC-424219F)	01 MAY 2024
NB SUB SANKALP KUMAR THAKUR	(JC-424221Y)	01 MAY 2024
NB SUB RABINDRA KUMAR JENA	(JC-424222F)	01 MAY 2024
NB SUB JOJI GEORGE	(JC-424232L)	01 MAY 2024
NB SUB VINOD KUMAR SINGH	(JC-424254K)	01 MAY 2024
NB SUB SATYANANDAN RAM KRISHNA	(JC-424303F)	01 MAY 2024
MISHRA		
NB SUB JAYSHANKAR KUMAR	(JC-424417M)	01 MAY 2024
NB SUB SIMBHU DAYAL SAINI	(JC-424441H)	01 MAY 2024
NB SUB BUDYUT KUMAR NATH	(JC-424472H)	01 MAY 2024
NB SUB PREM LAL SINGH	(JC-424324X)	02 MAY 2024*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 May 2024 without effect on pay and allowances)		
NB SUB JEEVAN LAL	(JC-424342A)	01 JUN 2024
NB SUB GIRDHARI LAL LORA	(JC-424556W)	07 JUN 2024*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jun 2024 without effect on pay and allowances)		
TO BE NAIB SUBEDAR (GD)		
HAV RANJIT SINGH	(14943203K Now JC-424997M)	08 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 20 Jan 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV NARINDER SINGH	(14935791N Now JC-424998P)	08 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 20 Jan 2024 without effect on pay and allowances)		

HAV JAGTAR SINGH	(14935371N Now JC-424999X)	08 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 20 Jan 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV BAL KRISHANA KUSHWAHA	(14927107L Now JC-425000Y)	08 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV SANJAY TAMANG	(14928488K Now JC-425001F)	06 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV MANOHAR GURUNG	(14931733M Now JC-425002K)	01 APR 2024*
*(Granted Notional Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2023 without effect on pay and allowances)		
HAV PRADEEP KUMAR	(14929600X Now JC-425006A)	06 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV RANDEV SINGH	(14928042P Now JC-425007H)	29 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV SUJIT MITRA	(14928528A Now JC-425008L)	05 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV RAHUL KUMAR	(14929742P Now JC-425009N)	01 APR 2024
HAV MOHAN SINGH RAWAT	(14931481L Now JC-425010H)	01 APR 2024
HAV PRADEEP KUMAR	(14931498Y Now JC-425011L)	01 APR 2024
HAV SANJEEV KUMAR	(14933625F Now JC-425012N)	01 APR 2024
HAV SAJJAN SINGH	(14934019X Now JC-425013W)	01 APR 2024
HAV LAL SINGH NARUKA	(14933731A Now JC-425014Y)	01 APR 2024
HAV GANESH RAM GURJAR	(14933104N Now JC-425015F)	01 APR 2024
HAV HARJINDER SINGH	(14933148L Now JC-425016K)	01 APR 2024
HAV BHOGA RAO THOTA	(14933161P Now JC-425017M)	01 APR 2024
HAV S SETHURAJ	(14930085H Now JC-425018P)	13 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 19 Mar 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV PRADEEPA KN	(14930425A Now JC-425019X)	13 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV SURESH KUMAR	(14931021K Now JC-425020M)	13 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV NABJYOTE SINGH	(14930648X Now JC-425021P)	25 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV RAJESH KUMAR	(14932469W Now JC-425022X)	17 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV MUDDALA BABU	(14930291M Now JC-425023A)	18 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV AMANDEEP SINGH	(14935638X Now JC-425024H)	06 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 05 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV RAM KARAN GURJAR	(14933390A Now JC-425025L)	09 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 21 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV SATYENDRA KUMAR	(14929744A Now JC-425026N)	30 APR 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 29 Apr 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV RAM DULARE RATHOR	(14928275W Now JC-425028Y)	01 MAY 2024
HAV DOLAN KUMAR MONDAL	(14929856A Now JC-425029F)	01 MAY 2024
HAV SURES CHANDRA JANA	(14928668M Now JC-425030W)	11 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV RADHA KRISHNAN B	(14929101H Now JC-425031Y)	01 MAY 2024

HAV BISWAJIT LAYEK	(14930082P Now JC-425032F)	01 MAY 2024
HAV BIKRAMJIT SINGH	(14931079F Now JC-425033K)	13 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV BIR SINGH	(14931264P Now JC-425034M)	13 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV ACHYUT SEMWAL	(14930981W Now JC-425035P)	25 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV V KARTHIKEYAN	(14929954A Now JC-425036X)	01 MAY 2024
HAV ABHIMANU KUMAR	(14930440P Now JC-425037A)	01 MAY 2024
HAV UDAYANATH DAS	(14931914X Now JC-425038H)	11 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV RUPENDRA SINGH	(14932560M Now JC-425039L)	01 MAY 2024
HAV VIKAL KUMAR	(14933642F Now JC-425040A)	01 MAY 2024
HAV VINOD KUMAR	(14936976F Now JC-425041H)	12 MAY 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 07 May 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV SATYA PRAKASH YADAV	(14929926N Now JC-425044W)	03 JUN 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV DEBASISH SARKAR	(14930801H Now JC-425045Y)	08 JUN 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV SURINDER KUMAR	(14931605P Now JC-425046F)	01 JUN 2024
HAV NARESH KUMAR	(14933629X Now JC-425047K)	07 JUN 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2024 without effect on pay and allowances)		
HAV PHARSA RAM GODARA	(14931081Y Now JC-425048M)	14 JUN 2024*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Jun 2024 without effect on pay and allowances)		

DEEPAK MALHOTRA
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 203, dated 5th October 2024—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

JAK LI

TO BE SUBEDAR MAJOR (GD) AND CLK (SD) CATEGORY

Particulars	Date of Promotion
JC-594559W Sub (GD) Suram Singh (Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jan 2022)	01 Jan 2022
JC-594359A Sub (GD) Sagar Singh (Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 May 2022)	01 May 2022
JC-594377H Sub (GD) Ab Majid Kataria (Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jun 2022)	01 Jun 2022
JC-594233A Sub (GD) Raj Kumar (Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jun 2022)	01 Jun 2022
JC-594236N Sub (GD) Bhamber Singh (Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jun 2022)	01 Jun 2022
JC-594231P Sub (GD) Ganesh Dutt	01 Jun 2022

Particulars	Date of Promotion
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jun 2022)	
JC-594302L Sub (GD) Mohd Muddasser Shafiq (Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jun 2022)	01 Jun 2022
JC-594304W Sub (GD) Mohd Sagheer (Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Aug 2022)	01 Aug 2022

TO BE NAIB SUBEDAR (GD), CLK (SD) AND MUSN CATEGORY

Particulars	Date of Promotion
9104304X Hav (Clk SD) Harlal Bhaskar (Now JC-595881P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (Clk SD) wef 01 Jan 2022)	24 Mar 2022
9103531L Hav Naresh Kumar (Now JC-595882X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 29 Jan 2022)	09 Mar 2022
9104887L Hav (Clk SD) Amarjeet Singh (Now JC-595883A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (Clk SD) wef 01 Feb 2022)	25 Mar 2022
9104305A Hav (Clk SD) Nitesh Kumar (Now JC-595884H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (Clk SD) wef 01 Jan 2022)	28 Mar 2022
9104841H Hav Ranjeet Singh (Now JC-595885L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Apr 2022)	01 Apr 2022
9106517K Hav Mohd Mushtaq Mir (Now JC-595886N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Apr 2022)	09 Apr 2022
9104303P Hav (Clk SD) Surender Kumar (Now JC-595887W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (Clk SD) wef 01 Jan 2022)	26 Apr 2022
9104389Y Hav Fazal Hussain Shah (Now JC-595888Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2022)	01 May 2022
9104179Y Hav Waqar Ahmed (Now JC-595889F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2022)	01 May 2022
9104469W Hav Vijay Kumar (Now JC-595890W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2022)	04 May 2022
9106781X Hav Ashok Kumar (Now JC-595891Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 04 Apr 2022)	06 May 2022
9106495W Hav Kamal Kumar (Now JC-595892F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Feb 2022)	23 Apr 2022
9103655A Hav Manoj Kumar Mansotra (Now JC-595893K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 24 Feb 2022)	20 May 2022
9104542K Hav Kuldeep Kumar (Now JC-595894M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 24 Feb 2022)	05 May 2022
9104774H Hav Suresh Kumar (Now JC-595895P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2022)	12 May 2022
9103490M Hav Imtiyaz Ahmed (Now JC-595896X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2022)	01 May 2022
9106928H Hav Rashpal Singh (Now JC-595897A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 09 May 2022)	01 Jun 2022
9104805X Hav Jahangir Hussain (Now JC-595898H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2022)	01 Jun 2022
9104845Y Hav Parshotam Lal (Now JC-595899L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2022)	01 Jun 2022
9104767M Hav Surjeet Singh (Now JC-595900P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2022)	01 Jun 2022

Particulars	Date of Promotion
9107130N Hav Rakesh Kumar (Now JC-595901X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 May 2022)	01 Jun 2022
9104889W Hav (Clk SD) Dalwinder Singh (Now JC-595902A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub (Clk SD) wef 01 Jun 2022)	01 Jun 2022
9104611P Hav Ashok Kumar (Now JC-595903H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2022)	01 Jun 2022
9104457F Hav Rajinder Kumar (Now JC-595904L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 24 Feb 2022)	13 Jun 2022
9103887Y Hav Sunil Kumar (Now JC-595905N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jul 2022)	01 Jul 2022
9104599Y Hav Kali Dass (Now JC-595906W) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jul 2022)	01 Jul 2022
9104402X Hav Mushtaq Ahmad Khan (Now JC-595907Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jul 2022)	01 Jul 2022
9103508X Hav Mohd Ramzan Khan (Now JC-595908F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 28 May 2022)	10 Jul 2022
9103729K Hav Mohd Khazoor Sheikh (Now JC-595909K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 28 May 2022)	10 Jul 2022
9103730Y Hav Fareed Ahmed (Now JC-595910Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 28 May 2022)	20 Jul 2022
9103774W Hav Ab Hamid Mir (Now JC-595911F) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 28 May 2022)	10 Jul 2022
9104996X Hav Joginder Singh (Now JC-595912K) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jun 2022)	17 Jun 2022
9107086P Hav Sohan Lal (Now JC-595913M) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 15 May 2022)	21 Jun 2022
9103867L Hav Karanjit (Now JC-595914P) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 28 May 2022)	12 Jul 2022
9103127W Hav Jagar Singh (Now JC-595915X) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 30 Jun 2022)	13 Aug 2022
9103424K Hav Bashir Ahmad Wani (Now JC-595916A) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 30 Jun 2022)	13 Aug 2022
9103499F Hav Satvir Singh (Now JC-595917H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 30 Jun 2022)	13 Aug 2022
9103621M Hav Vikram Singh (Now JC-595918L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 30 Jun 2022)	13 Aug 2022
9103829P Hav Sandeep Charak (Now JC-595919N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 30 Jun 2022)	13 Aug 2022
9103840N Hav Devinder Kumar (Now JC-595920H) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 30 Jun 2022)	22 Aug 2022
9103982L Hav Varinder Singh (Now JC-595921L) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jul 2022)	13 Aug 2022
9104026P Hav Peer Shahnawaz Ahmed (Now JC-595922N) Nb Sub (Gtd seniority in the rk of Nb Sub wef 01 Jul 2022)	13 Aug 2022

SANJAY KUMAR GAUR
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 204, dated 05.10.2024—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

The Dogra Regiment

To be Nb Sub

Hav Vijay Kumar	(3999872F Now JC-523734W)	6 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sunil Kumar	(4000806Y Now JC-523735Y)	12 th Nov 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sunil Kumar Rana	(4000199L Now JC-523736F)	20 th Nov 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Varinder Singh	(3999857M Now JC-523737K)	6 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dinesh Kumar	(3998088F Now JC-523738M)	30 th Nov 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanjeev Kumar	(3998915Y Now JC-523739P)	25 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajdev Singh	(3998957L Now JC-523740K)	12 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Santosh Kumar	(3999870W Now JC-523741M)	6 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Om Prakash	(3998117L Now JC-523742P)	1 st Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14 th Oct 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Parminder Singh	(3998185Y Now JC-523743X)	17 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 18 th Oct 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Shrvan Kumar	(4365824N Now JC-523744A)	6 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pradeep Kumar	(3997644A Now JC-523745H)	13 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dharam Pal	(3998181H Now JC-523746L)	29 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 th Dec 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Mukesh Kumar	(3998183N Now JC-523747N)	29 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 26 th Dec 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanjay Kumar	(20000687K Now JC-523748W)	28 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ashwani Kumar	(4000201X Now JC-523749Y)	30 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Balvinder Singh	(4366955L Now JC-523750N)	6 th Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Manoj Kumar	(4000175F Now JC-523751W)	31 st Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 6 th Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pradeep Kumar	(4000326P Now JC-523752Y)	30 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8 th Sep 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(4000172N Now JC-523753F)	28 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 th Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ameet Kumar	(4000822W Now JC-523754K)	30 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Anup Kumar	(4000209K Now JC-523755M)	1 st Jan 2022
Hav Arjun Singh	(4000290F Now JC-523756P)	1 st Jan 2022
Hav Anil Kumar	(4000319Y Now JC-523757X)	1 st Jan 2022
Hav Avtar Singh	(4000340F Now JC-523758A)	1 st Jan 2022
Hav Manoj Kumar	(4000471M Now JC-523759H)	1 st Jan 2022
Hav Dinesh Kumar	(4009697Y Now JC-523762H)	2 nd Feb 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajeeb Kumar	(4000798L Now JC-523763L)	7 th Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Bhaskar Sharma	(3997963M Now JC-523764N)	1 st Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 th Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Surinder Kumar	(3998113P Now JC-523765W)	24 th Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 3 rd Oct 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sukhdev Raj	(3997707X Now JC-523766Y)	3 rd Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Mangal Singh	(3999133P Now JC-523767F)	10 th Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 16 th Nov 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ashok Kumar	(3998310X Now JC-523768K)	2 nd Feb 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28 th Nov 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Naveen	(3997932M Now JC-523769M)	3 rd Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Raj Kumar	(3997694L Now JC-523770F)	3 rd Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajesh Singh	(3998416K Now JC-523771K)	3 rd Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Jarnail Singh	(3998860A Now JC-523772M)	17 th Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ramesh Kumar	(3997695N Now JC-523773P)	1 st Jan 2022
Hav Delawar Singh	(3997876Y Now JC-523774X)	1 st Jan 2022
Hav Rajesh Kumar	(3998219F Now JC-523775A)	6 th Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanjay Kumar	(3997655M Now JC-523776H)	1 st Jan 2022
Hav Ajay Kumar	(3997685K Now JC-523777L)	1 st Jan 2022

Hav Yadav Chand	(3997698F Now JC-523778N)	1 st Feb 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Ajay Kumar	(3997741Y Now JC-523779W)	1 st Feb 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Ajay Kumar	(3998583A Now JC-523780L)	25 Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Daljeet Singh	(3998252Y Now JC-523781N)	6 th Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Viney Kumar	(2997422P Now JC-523782W)	6 th Jan 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Sonam Angdui	(3998797W Now JC-523783Y)	2 nd Feb 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(3998774P Now JC-523784F)	2 nd Feb 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Lekh Ram	(4002463M Now JC-523785K)	2 nd Feb 2022*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2022 without effect on pay and allowances)		
Hav Jagdish	(3997929M Now JC-523681H)	31 st Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Desh Raj	(3997959K Now JC523682L)	31 st Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajesh Kumar	(3997979X Now JC-523683N)	17 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajeev Kumar	(3997928K Now JC-523684W)	28 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28 th Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Bharat Bhushan	(3997706P Now JC-523685Y)	11 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajesh Kumar	(3999009N Now JC-523686F)	17 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 21 without effect on pay and allowances)		
Hav Ravinder Singh	(3998060F Now JC-523687K)	15 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Gaja Singh	(3998787M Now JC-523688M)	1 st Sep 2021
Hav Virender Singh	(3997953H Now JC-523689P)	10 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(3998029P Now JC-523690K)	7 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Aman Kumar	(3997640K Now JC-523691M)	1 st Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ramesh Ravi	(4000791F Now JC-523692P)	24 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanjay Kumar	(4366835M Now JC-523693X)	10 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 2 nd Aug 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Joginder Paul	(3998889H Now JC-523694A)	10 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vishal Sharma	(4000082M Now JC-523695H)	10 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Kuldeep Singh	(3998038W Now JC-523696L)	7 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Banta Singh	(3998052H Now JC-523697N)	7 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Jujhar Singh	(3998069W Now JC-523698W)	7 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vijay Kumar	(3999590H Now JC-523702N)	23 rd Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 2 nd Jun 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dharmender Kumar	(3999849N Now JC-523703W)	20 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dasondh Ram Rattan	(3999851L Now JC-523704Y)	11 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11 th Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Besar Ram	(3997936H Now JC-523705F)	1 st Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28 th Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Bhagwan Singh	(3999899Y Now JC-523706K)	11 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Tarsem Kumar	(3997892W Now JC-523707M)	13 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 3 rd Aug 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Punjab Singh	(4000181P Now JC-523708P)	27 th Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14 th Aug 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanjay Kumar	(3996429H Now JC-523709X)	8 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 21 st Aug 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Praveen Kumar	(4000424P Now JC-523710M)	14 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 21 st Aug 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pritam Singh, SM	(3997868A Now JC-523711P)	1 st Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 29 th Aug 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pardeep Singh	(4000533F Now JC-523712X)	7 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Satish Kumar	(4001252X Now JC-523713A)	8 th Nov 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dina Nath	(3998656F Now JC-523714H)	5 th Oct 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pawan Kumar	(3998824P Now JC-523715L)	25 th Sep 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Joginder Pal	(3998895W Now JC-523716N)	13 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Netar Pal	(3998914W Now JC-523717W)	4 th Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanju Kumar	(3999007H Now JC-523718Y)	4 th Oct 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pritam Singh	(3999085A Now JC-523719F)	25 th Sep 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Asha Singh	(3997947P Now JC-523720W)	1 st Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vinod Thakur	(3997962K Now JC-523721Y)	1 st Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Raghbir Singh	(3999043N Now JC-523722F)	22 nd Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Anil Kumar	(3999996W Now JC-523723K)	20 th Oct 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Kalyan Singh	(3997800Y Now JC-523724M)	5 th Oct 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 5 th Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Anil Patiyal	(3998105W Now JC-523725P)	25 th Nov 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dila Ram	(3999788F Now JC-523726X)	6 th Dec 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ajay Dogra	(4005953L Now JC-523727A)	6 th Nov 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 3 rd May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sukh Dev Singh Chauhan	(3999031Y Now JC-523728H)	3 rd Nov 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8 th Aug 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dig Vijay	(3998897F Now JC-523729L)	12 th Nov 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ranjeet Singh	(4000183A Now JC-523730A)	20 th Nov 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ravi Kumar	(3999062Y Now JC-523731H)	20 th Nov 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 12 th Sep 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Naresh Kumar	(3998176X Now JC-523732L)	25 th Nov 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 6 th Oct 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajesh Kumar	(3998174M Now JC-523733N)	1 st Dec 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Puram Chand	(3998775X Now JC-523585N)	24 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ashwani Kumar	(3997648W Now JC-523586W)	27 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Sarvjeet Singh	(4006909N Now JC-523587Y)	30 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajesh Kumar	(3996913P Now JC-523588F)	20 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Feb 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Kulbir Singh	(3998058K Now JC-523589K)	27 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Feb 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pawan Kumar	(3997011M Now JC-523590Y)	20 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Man Mohan	(3997023F Now JC-523591F)	20 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Swaroop Singh	(3997310L Now JC-523592K)	20 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Kudeep Raj	(3997475K Now JC-523593M)	17 Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ravinder Kumar	(4000574L Now JC-523594P)	8 th Apr 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Gulshan Mehta, SM	(3998284F Now JC-523595X)	1 st Mar 2021
Hav Naresh Kumar	(3999454M Now JC-523596A)	15 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(3999801A Now JC-523597H)	15 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajnish Kumar	(3998896Y Now JC-523598L)	31 st Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 th Apr 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Pranav Chauhan	(3999032F Now JC-523599N)	29 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 th Apr 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Sudesh Singh	(4000482Y Now JC-523602H)	5 th Apr 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ajeet Raj	(3997859Y Now JC-523603L)	1 st Apr 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pankaj Kumar	(4000555A Now JC-523604N)	5 th Apr 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vipin Kumar	(4000582K Now JC-523605W)	5 th Apr 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Balbir Kumar	(3998403M Now JC-523606Y)	5 th Apr 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sushil Kumar	(3998976W Now JC-523607F)	4 th May 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Bhushan Kumar	(3997816K Now JC-523608K)	17 th May 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 6 th Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dalvir Singh	(3998391H Now JC-523609M)	12 th Apr 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Davinder Singh	(3999835N Now JC-523610F)	1 st May 2021
Hav Ujagar Singh	(3999947N Now JC-523611K)	1 st May 2021
Hav Manjeet Kumar	(4000159K Now JC-523612M)	1 st May 2021
Hav Ajay Singh	(3998444W Now JC-523613P)	1 st May 2021
Hav Sudesh Kumar	(3998445Y Now JC-523614X)	1 st May 2021
Hav Vijay Chauhan	(4000211F Now JC-523615A)	11 th May 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ajay Kumar	(4000229X Now JC-523616H)	1 st May 2021
Hav Parveen Kumar	(3997651W Now JC-523617L)	1 st May 2021
Hav Rajneesh Kumar	(20000507W Now JC-523621N)	1 st Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 4 th Nov 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajesh Kumar Sharma	(3998165L Now JC-523622W)	21 st Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sandeep Sharma	(3999224Y Now JC-523623Y)	12 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajinder Singh	(4000631F Now JC-523624F)	28 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Trilok Chand	(3999253N Now JC-523625K)	21 st Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 th Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Tilak Raj	(4007021X Now JC-523626M)	5 th Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 th Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Duni Chand	(4000730K Now JC-523627P)	28 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(3999286Y Now JC-523628X)	21 st Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 6 th Apr 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Suram Chand	(3997894F Now JC-523629A)	17 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ganesh Kumar	(4000840Y Now JC-523630P)	28 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Uttam Chand	(4001125H Now JC-523631X)	28 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Shashi Kumar	(4000205N Now JC-523632A)	14 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Baljeet Singh	(3999783H Now JC-523633H)	21 st Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vijay Kumar	(3999842K Now JC-523634L)	21 st Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Ramesh Chander	(3997351P Now JC-523635N)	14 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Soni Lal	(3997831Y Now JC-523636W)	12 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Muni Lal	(3997917X Now JC-523637Y)	17 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8 th May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Santosh Singh	(3999298N Now JC-523638F)	12 th Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 13 th May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ashok Kumar	(3998777H Now JC-523639K)	1 st Jul 2021

SAMSON D VICTORIA

Lt Col

Chief Record Officer

ARMY BRANCH

No. 205 dated 5th October 2024—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

The Dogra Regiment

To be Nb Sub

Hav Rajiv Kumar	(4000144F Now JC-523640Y)	2 nd Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ranjit Singh	(4000167H Now JC-523641F)	2 nd Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Suresh Kumar	(3997944F Now JC-523642K)	1 st Jul 2021
Hav Viney Kumar Rana	(3999128K Now JC-523643M)	2 nd Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Jernail Singh	(3999130F Now JC-523644P)	10 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Gopal Sharma	(3999134X Now JC-523645X)	11 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 6 th Feb 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Romesh Singh	(3999145K Now JC-523646A)	2 nd Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 th Feb 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Desh Raj	(3997491F Now JC-523647H)	6 th Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pawan Kumar	(3997493M Now JC-523648L)	25 th Jun 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 7 th Apr 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajan	(4000811K Now JC-523649N)	31 st Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 th Apr 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Attar Singh, SM	(4000094F Now JC-523650H)	5 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 5 th Jun 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Kulwant Singh	(3997532A Now JC-523651L)	6 th Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Joginder Singh	(3997554Y Now JC-523652N)	6 th Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanjiv Kumar	(3997562X Now JC-523653W)	6 th Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ravi Kumar	(3997570W Now JC-523654Y)	6 th Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dinesh Singh	(3997614H Now JC-523655F)	6 th Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rakesh Kumar	(3997627A Now JC-523656K)	6 th Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Anil Kumar	(4000170H Now JC-523657M)	5 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Narinder Kumar	(3998446F Now JC-523658P)	23 rd Jul 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Balvinder Kumar	(4000476L Now JC-523659X)	5 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ravi Kumar	(4000521M Now JC-523660M)	5 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Gurcharan Singh	(4000652X Now JC-523661P)	5 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajneesh Kumar	(3997641M Now JC-523662X)	5 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 th Jul 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Raj Kumar	(3998879Y Now JC-523663A)	1 st Aug 2021
Hav Rajesh Kumar	(4009043P Now JC-523664H)	13 th Aug 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Oct 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Charanjit Singh	(3997659H Now JC-523665L)	1 st Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 th Apr 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Suresh Kumar	(3998613M Now JC-523666N)	2 nd Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 th Apr 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Jiya Lal	(3997696W Now JC-523667W)	21 st Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 21 st May 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Surinder Singh	(3998347Y Now JC-523668Y)	18 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 6 th Jun 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sunil Kumar	(3998169F Now JC-523669F)	21 st Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17 th Jun 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vikas Katoch	(4001217P Now JC-523670W)	11 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 th Jun 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Devinder Singh	(3999173W Now JC-523671Y)	25 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 23 rd Jun 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ajay Kumar	(3998193X Now JC-523672F)	24 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 26 th Jun 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Sandeep Kumar Sharma (3997630A Now JC-523673K)	27 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav Bharat Bhushan (3998625F Now JC-523674M)	1 st Sep 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav Bintu (4001288W Now JC-523675P)	11 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav Chaman Lal (4001294K Now JC-523676X)	11 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav Rakesh Kumar (3999193K Now JC-523677A)	18 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav Ajay Pathania (4000357P Now JC-523678H)	24 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav Joginder Singh (4000540X Now JC-523679L)	17 th Aug 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav Monishwer Dutt (4007722N Now JC-523680A)	1 st Oct 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jul 2021 without effect on pay and allowances)	

To be Nb Sub (Clerk SD)

Hav (Clk SD) Sunder Singh (3999190W Now JC-523442N)	1 st Sep 2020
Hav (Clk SD) Sanjay Kumar (3999233A Now JC-523444Y)	20 th Oct 2020*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 2020 without effect on pay and allowances)	
Hav (Clk SD) Rohitashv Kumar Saini (4000312P Now JC-523445F)	7 th Oct 2020*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 2020 without effect on pay and allowances)	
Hav (Clk SD) Sunil Kumar (4001123X Now JC-523538W)	5 th Dec 2020*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Dec 2020 without effect on pay and allowances)	
Hav (Clk SD) Peelam Singh Dogra (3998127P Now JC-523600X)	27 th Jan 2021 *
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav (Clk SD) Nutan Kumar (4001114W Now JC-523601A)	2 nd Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav (Clk SD) Balwinder Singh (4001167P Now JC-523618N)	22 nd Apr 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Apr 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav (Clk SD) Balbinder Singh (4001168X Now JC-523619W)	1 st May 2021
Hav (Clk SD) Manoj Kumar (4001555M Now JC-523620L)	1 st May 2021

To be Nb Sub

Hav Suresh (3999083P Now JC-523533X)	15 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)	
Hav Sher Singh (3997776N Now JC-523534A)	30 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)	

Hav Kalwant Singh	(3997783K Now JC-523535H)	29 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pawan Kumar	(3997785P Now JC-523536L)	1 st Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajneesh Kumar	(3997815F Now JC-523537N)	1 st Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Tajinder Kumar	(4000028Y Now JC-523540N)	2 nd Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th May 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Ravi Kumar	(3995784N Now JC-523541W)	19 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Aug 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Shashi Pal Singh	(3998853K Now JC-523542Y)	16 th Dec 2020*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Sandeep Pal	(3999026N Now JC-523543F)	16 th Dec 2020*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Oct 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Sunil Kumar	(3996023P Now JC-523544K)	19 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajender Singh	(3996892K Now JC-523545M)	15 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dilawar Singh	(3998161P Now JC-523546P)	19 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ajay Kumar	(4000245P Now JC-523547X)	5 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dhameshwar Ram	(3996416L Now JC-523548A)	19 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ram Kumar SM	(13623331L Now JC-523549H)	5 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Hans Raj	(3996964H Now JC-523550X)	19 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ranjit Singh	(3999342M Now JC-523551A)	5 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Chaman Lal	(3999389X Now JC-523552H)	5 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajeev Sharma	(3999245P Now JC-523553L)	30 Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Saran Dass	(3997904A Now JC-523554N)	5 th Feb 2021**
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pawan Kumar	(3189688F Now JC-523555W)	31 st Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Suresh Kumar	(3997030X Now JC-523556Y)	31 st Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sandeep Kumar	(3997555F Now JC-523557F)	2 nd Feb 2021*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sohan Singh	(3997561P Now JC-523558K)	11 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Hardev Singh	(3997421H Now JC-523559M)	31 st Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Subhash Chander	(2996871X Now JC-523560F)	31 st Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Suresh Kumar	(3191037K Now JC-523561K)	31 st Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajinder Singh	(3997610M Now JC-523562M)	22 nd Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Dalbir Singh	(3998595P Now JC-523563P)	1 st Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Om Prakash Sharma	(3996405Y Now JC-523564X)	1 st Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Susheel Kumar	(3997778Y Now JC-523565A)	5 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sunil Dutt	(3996846P Now JC-523566H)	26 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 th Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Deepak	(4001335H Now JC-523567L)	2 nd Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Feb 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Kamlesh Kumar	(4366100H Now JC-523568N)	1 st Mar 2021
Hav Baldev Kumar	(3998878W Now JC-523569W)	1 st Mar 2021
Hav Raj Kumar	(3999106L Now JC-523570L)	1 st Mar 2021
Hav Vinay Jaswal	(3999422K Now JC-523571N)	2 nd Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Mar 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ranjeet Kumar	(3998874A Now JC-523572W)	1 st Mar 2021
Hav Jonny Jasrotia	(20000679L Now JC-523573Y)	22 nd Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Oct 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajinder Sharma	(3996700F Now JC-523574F)	22 nd Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Oct 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Sandup	(3997798M Now JC-523575K)	22 nd Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 th Oct 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Chamail Singh	(3997865M Now JC-523576M)	22 nd Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Nov 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajesh Kumar	(3998070L Now JC-523577P)	22 nd Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Ram Parsad	(3998306P Now JC-523578X)	22 nd Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Chhaju Ram	(3998428Y Now JC-523579A)	22 nd Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Pushpinder Singh	(3997563A Now JC-523580P)	10 th Apr 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 2 nd Dec 2020 without effect on pay and allowances)		
Hav Virender Kumar	(3997729W Now JC-523581X)	23 rd Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Babu Ram	(3998383K Now JC-523582A)	8 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Suresh Kumar	(3997594A Now JC-523583H)	23 rd Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ashwani Kumar	(3998768F Now JC-523584L)	24 th Mar 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ravinder Singh	(3996506M Now JC-523483X)	1 st Jan 2021
Hav Kamal Raj	(3996858K Now JC-523484A)	1 st Jan 2021
Hav Joginder Singh	(3996873Y Now JC-523485H)	1 st Jan 2021
Hav Raman Kumar	(3996496N Now JC-523486L)	9 th Jan 21*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Suresh Kumar	(3996877P Now JC-523487N)	9 th Jan 21*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rabin Kumar	(3997352X Now JC-523488W)	1 st Jan 2021
Hav Ranjeet Singh	(3997362F Now JC-523489Y)	1 st Jan 2021
Hav Rameshwar Singh	(3997202F Now JC-523490N)	1 st Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Tej Ram	(3997404H Now JC-523491W)	1 st Jan 2021
Hav Rajesh Kumar	(3998135N Now JC-523492Y)	1 st Jan 2021
Hav Manjeet Kumar	(13621635K Now JC-523493F)	1 st Jan 2021
Hav Ravinder Kumar	(3997987W Now JC-523494K)	8 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vinod Kumar	(3997257L Now JC-523495M)	9 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Manohar Lal	(3998163A Now JC-523496P)	1 st Jan 2021
Hav Sanjay Kumar	(3998015P Now JC-523497X)	8 th Jan 2021
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ajesh Kumar	(3996973K Now JC-523498A)	1 st Jan 2021
Hav Sohan Singh	(3996999Y Now JC-523499H)	1 st Jan 2021
Hav Surjeet Singh	(3997233F Now JC-523500M)	1 st Jan 2021
Hav Karnail Singh	(3997258N Now JC-523501P)	9 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		

Hav Surinder Pal	(3999653A Now JC-523502X)	11 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vinod Kumar	(3999255Y Now JC-523503A)	1 st Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ranjeet Singh	(4007396W Now JC-523504H)	1 st Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sudagar Lal	(3998040N Now JC-523505L)	8 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Kripal Singh Pathania	(3998047X Now JC-523506N)	8 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Lovnish Awasthi	(4000304W Now JC-523507W)	11 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Hakikat Singh	(4000429N Now JC-523508Y)	11 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vijay Kumar	(4000469P Now JC-523509F)	11 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sunil Kumar	(3997494P Now JC-523510W)	4 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sunil Kumar	(3999652X Now JC-523511Y)	1 st Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sanjay Kumar	(3997906L Now JC-523512F)	1 st Jan 2021
Hav Rajesh Kumar Sharma	(2995672X Now JC-523513K)	9 th Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Ajay Kumar	(3997072K Now JC-523514M)	14 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sunil Kumar	(3997329K Now JC-523515P)	14 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Rinku	(3999079M Now JC-523516X)	1 st Jan 2021
Hav Nirmal Singh	(3999124N Now JC-523517A)	1 st Jan 2021
Hav Vijay Kumar	(3999747X Now JC-523518H)	1 st Feb 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Arun Kumar	(3997502H Now JC-523519L)	14 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Sushil Kumar	(3997503L Now JC-523520A)	14 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vipin Rana	(3999330X Now JC-523521H)	8 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Manoj Kumar	(3997710X Now JC-523522L)	25 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Bahadur Singh	(3999343P Now JC-523523N)	8 th Jan 2021*
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1 st Jan 2021 without effect on pay and allowances)		
Hav Vijay Kumar	(3999344X Now JC-523524W)	8 th Jan 2021*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Jan 2021 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Singh (3999391P Now JC-523525Y) 8th Jan 2021*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Jan 2021 without effect on pay and allowances)

Hav Pyar Chand (3997473Y Now JC-523526F) 9th Feb 2021*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Jan 2021 without effect on pay and allowances)

Hav Narender Kumar (3997480P Now JC-523527K) 1st Feb 2021*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Jan 2021 without effect on pay and allowances)

Hav Hem Singh (3998683L Now JC-523528M) 8th Jan 2021*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Jan 2021 without effect on pay and allowances)

Hav Ashwani Kumar (4001270A Now JC-523529P) 1st Jan 2021

Hav Vijay Singh (3999044W Now JC-523530K) 1st Jan 2021

Hav Pawan Kumar (3999058W Now JC-523531M) 1st Jan 2021

Hav Sachin Kumar Sharma (3999061W Now JC-523532P) 13th Jan 2021*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st Jan 2021 without effect on pay and allowances)

SANJAY KUAMR GAUR
Under Secy.